

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29—सितम्बर 4, 2015 (भाद्रपद 7, 1937)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29—SEPTEMBER 4, 2015 (BHADRA 7, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2015

सेना शाखा

सं. 206, दिनांक 11 अगस्त 2015—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थाई आयोग

(लें0 के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से)

निम्नलिखित 381 कैडिटों को जो की 135 नियमित पाठ्यक्रम (125 डाईरेक्ट एन्ट्री, 193 एक्स एन डी ए तथा 63 एक्स ए सी सी) के सस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से तथा इनमें से दो जीसी एन/44902 (आई सी 79801ए) राहुल कुमार तथा डी/44534 (आई सी संख्या 79929 एल) सुशांत कुमार है जो आयोग के समय एल एम सी थे। शेष—1 होने के बाद जीसी एन/44902 (आई सी 79801ए) राहुल कुमार तथा जीसी डी/44534 (आई सी 79929एल) सुशांत कुमार क्रमशः दिनांक 03 फरवरी 2015 तथा 24 फरवरी 2015 पूर्वाह्न से, सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना

अनुदेश 4/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी) यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या		नाम	आर्म/सर्विस
79578	एफ	पवन कुमार साँगवान	इन्फैन्ट्री
79579	के	पंकज कुमार	एसी
79580	वाई	आदित्य आनन्द त्यागी	इन्फैन्ट्री
79581	एफ	भानु प्रताप सिंह	एसी
79582	के	करन ठुकराल	ईएमई
79583	एम	श्रेय मिस्त्री	इन्फैन्ट्री
79584	पी	जयदीप चुघ	इन्फैन्ट्री
79585	एक्स	अंकित सूद	सिग्नल्स
79586	ए	अमर प्रकाश	इंजीनियर्स
79587	एच	विश्वजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
79588	एल	दिलबाग सिंह हांजरा	आर्टी
79589	एन	ललित	इंजीनियर्स
79590	एच	हरिकृष्णन ए	आर्टी
79591	एल	सचिन भारद्वाज	एएससी
79592	एन	मनोज कुमार	आर्टी
79593	डब्ल्यू	श्रीकांत साबत	आर्टी
79594	वाई	सिद्धान्त सार्थक	एसी
79595	एफ	रोहित सिंह पिलानियाँ	इन्फैन्ट्री
79596	के	सुरेश कुमार	इन्फैन्ट्री
79597	एम	परमिंदर सिंह विर्क	आर्टी
79598	पी	सौम्येश मोहापात्र	एविषन
79599	एक्स	नवनीत चौहान	एओसी
79600	एफ	कार्तिक शर्मा	मैक
79601	के	अभय जोशी	इन्फैन्ट्री
79602	एम	पीयूष राज	एएडी
79603	पी	सुखविंदर सिंह	इन्फैन्ट्री
79604	एक्स	आशीष कुमार	एएससी
79605	ए	ऋषि आहूजा	एओसी
79606	एच	राकेश कुमार	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79607	एल	चन्दर सिंह बोरा	मैक
79608	एन	सूरज संजय इथापे	इन्फैन्ट्री
79609	डब्ल्यू	ऋषि शर्मा	इन्फैन्ट्री
79610	एल	अमित ठाकुर	आर्टी
79611	एन	आशीष ठाकुर	इन्फैन्ट्री
79612	डब्ल्यू	सूर्य प्रकाश	एसी
79613	वाई	सिद्धांत सिंह	इन्फैन्ट्री
79614	एफ	अनन्त गोयल	सिग्नल्स
79615	के	आशीष कुमार	एसी
79616	एम	देवाशीष उपाध्याय	इन्फैन्ट्री
79617	पी	कृष्णा सक्सेना	इन्फैन्ट्री
79618	एक्स	विकास कुमार राठौर	इन्फैन्ट्री
79619	ए	सुनील मिश्रा	इंजीनियर्स
79620	पी	प्रशांत नौहवार	एएससी
79621	एक्स	रविन्द्र कुमार	एओसी
79622	ए	नरिंद्र कुमार	इन्फैन्ट्री
79623	एच	वैशाक मधुसूदनन	आर्टी
79624	एल	विकास कुमार कमल	आर्टी
79625	एन	अखिलेश चौधरी	ईएमई
79626	डब्ल्यू	धीरज सिंह चौहान	आर्टी
79627	वाई	संतोष सिंह मेहरा	इन्फैन्ट्री
79628	एफ	दहितुले प्रतीक रामदास	आर्टी
79629	के	वैभव कुमार	इंजीनियर्स
79630	वाई	मोहित कुमार नैन	इन्फैन्ट्री
79631	एफ	अभिनव चतुर्वेदी	इन्फैन्ट्री
79632	के	रंजन सिंह भानुका	एएडी
79633	एम	हरेन्द्र मलिक	एओसी
79634	पी	अविनाश गिरि	इन्फैन्ट्री
79635	एक्स	समीर यादव	आर्टी
79636	ए	विवेकी छेत्री	इन्ट
79637	एच	अजय बिजारनीया	सिग्नल्स

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79638	एल	आनन्द	आर्टी
79639	एन	नितिन केशरवानी	एएडी
79640	एच	सागर बुधवार	एएससी
79641	एल	अंकित मिश्रा	मैक
79642	एन	जे मोरडेकाय नीगमड	इन्फैन्ट्री
79643	डब्ल्यू	हिमांशु कुकरेजा	इंजीनियर्स
79644	वाई	लाड़ प्रणय संजय	इन्फैन्ट्री
79646	के	गौरव मिश्रा	इन्फैन्ट्री
79647	एम	अमन गंगवार	आर्टी
79648	पी	रविन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
79649	एक्स	विश्वजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
79650	एम	बुलु महाराणा	आर्टी
79651	पी	आशीष बत्रा	आर्टी
79652	एक्स	अक्षय महाजन	इंजीनियर्स
79653	ए	आदित्य सिंह	इंजीनियर्स
79654	एच	सुचित नौटियाल	ईएमई
79655	एल	वरुण कुमार दूबे	आर्टी
79656	एन	स्निग्ध भारद्वाज	इन्फैन्ट्री
79657	डब्ल्यू	दिशांत बिष्ट	इन्फैन्ट्री
79658	वाई	सूर्यकांत मुदगल	सिग्नल्स
79659	एफ	प्रकाश भट्ट	एएससी
79660	डब्ल्यू	आशीर्वाद	आर्टी
79661	वाई	अरविन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
79662	एफ	कुणाल नरुला	एविएशन
79663	के	शशांक	आर्टी
79664	एम	मानस वर्मा	आर्टी
79665	पी	विक्रम बोहरा	इंजीनियर्स
79666	एक्स	सिद्धार्थ ठाकुर	इन्फैन्ट्री
79667	ए	प्रभात मिश्रा	इन्फैन्ट्री
79668	एच	शंकरगौड़ा एस पाटिल	इन्फैन्ट्री
79669	एल	सिद्धार्थ यादव	एसी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79670	ए	अरुण पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
79671	एच	कंवरपाल सिंह	एएससी
79672	एल	गौरव बवेजा	एसी
79673	एन	आशीष कुमार	एएडी
79674	डब्ल्यू	सतीश कुमार यल्लपु	सिग्नल्स
79676	एफ	मनोज सिंह	एओसी
79677	के	गोविंद सिंह	इन्फैन्ट्री
79678	एम	नवनीत गुरुंग	इन्फैन्ट्री
79679	पी	रवि कुमार	इन्फैन्ट्री
79680	के	अमनदीप सिंह गौड़	इन्फैन्ट्री
79681	एम	रोहित जून	ईएमई
79682	पी	वी एस कार्तिक चिराला	आर्टी
79683	एक्स	राहुल आर नायर	आर्टी
79684	ए	आर लोहित	इन्फैन्ट्री
79685	एच	अजीत कुमार	एएडी
79686	एल	हेमन्त कुमार	सिग्नल्स
79687	एन	कार्तिकेयन के एस	एसी
79688	डब्ल्यू	राकेश कुमार कौन्तेय	आर्टी
79689	वाई	रमेश कुमार उपाध्याय	एएडी
79690	एन	आभाष चौरसिया	इन्फैन्ट्री
79691	डब्ल्यू	नलावडे नितीश चन्द्रशेखर	आर्टी
79692	वाई	संदीप दधीच	एओसी
79693	एफ	लितिन के	इन्फैन्ट्री
79694	के	साहिल भदरेचा	इंजीनियर्स
79695	एम	प्रशांत रेप्सवाल	आर्टी
79696	पी	कमलप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री
79697	एक्स	सन्नी गुप्ता	इंजीनियर्स
79698	ए	योगवीर	एएससी
79699	एच	अनीश भैक	इन्फैन्ट्री
79700	एम	अभय मिश्रा	ईएमई
79701	पी	समदर्श शर्मा	एएससी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79702	एक्स	अरिहन्त गहलौत	मैक
79703	ए	वासु सौगवान	इन्फैन्ट्री
79704	एच	सिद्धार्थ चौबे	आर्टी
79705	एल	दीपक त्यागी	आर्टी
79706	एन	आशिक एम बी	इन्फैन्ट्री
79707	डब्ल्यू	अंतरिक्ष त्यागी	एसी
79708	वाई	दिनेश चन्द्र	इन्फैन्ट्री
79709	एफ	भरत चावली	इंजीनियर्स
79710	डब्ल्यू	एस श्याम	आर्टी
79711	वाई	नील सिलास लोबो	एसी
79712	एफ	सतीश कुमार	इन्फैन्ट्री
79713	के	रघु शर्मा	एसी
79714	एम	हिम्मत सिंह	एओसी
79715	पी	कविन्द्र सिंह महर	इन्फैन्ट्री
79716	एक्स	सिद्धार्थ	एसी
79717	ए	दीपक डबास	एओसी
79718	एच	ऋषभ मेहरा	इन्फैन्ट्री
79719	एल	विकास	मैक
79720	ए	जतिन परिहार	इन्फैन्ट्री
79721	एच	नितिन रावत	इन्फैन्ट्री
79722	एल	पारस अदलखा	आर्टी
79723	एन	गुरपाल सिंह	इन्फैन्ट्री
79724	डब्ल्यू	संजय सिंह थापा	एएससी
79725	वाई	प्रणव शर्मा	आर्टी
79726	एफ	मनोज कुमार बसेरा	इन्फैन्ट्री
79727	के	राजीव कौशल	ईएमई
79728	एम	अनूप रविन्द्र शेटी	इन्फैन्ट्री
79729	पी	रोहित वर्मा	इन्फैन्ट्री
79730	के	एस हेमंत कुमार	इंजीनियर्स
79731	एम	पवन कुमार तिवारी	इंजीनियर्स
79732	पी	रविशंकर राजाराम कदम	आर्टी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79733	एक्स	रितेश कुमार यादव	एएससी
79734	ए	अंनशुमन	आर्टी
79735	एच	रॉकी खर्ब	एएडी
79736	एल	सागर पाँचाल	आर्टी
79737	एन	आकाश सिंह तोमर	इन्फैन्ट्री
79738	डब्ल्यू	चन्द्र भूषण मिश्रा	सिग्नल्स
79740	एन	भरत यादव	इन्फैन्ट्री
79741	डब्ल्यू	अमित कुमार धेतरवाल	एसी
79744	के	नीरज पाण्डेय	आर्टी
79745	एम	आशीष कुमार	इन्ट
79746	पी	नबीन गुरुंग	एएससी
79747	एक्स	अमन कन्वर	इंजीनियर्स
79748	ए	मुकुल सैनी	आर्टी
79749	एच	सक्षम दतियाल	इन्फैन्ट्री
79750	एक्स	हर्ष शर्मा	इन्फैन्ट्री
79751	ए	अमित यादव	आर्टी
79752	एच	दविन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
79753	एल	सौरभ सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
79754	एन	प्रतीक शुक्ला	इंजीनियर्स
79755	डब्ल्यू	राहुल यादव	इन्फैन्ट्री
79756	वाई	सचिन प्रकाश	एओसी
79757	एफ	बिकास कुमार स्वाईन	एएडी
79758	के	तनुज गौड	आर्टी
79759	एम	मयूर हरिदास नवघरे	आर्टी
79760	एफ	मोहित माहना	सिग्नल्स
79761	के	अभिषेक सिंह	इन्फैन्ट्री
79762	एम	वैभव रावत	इन्फैन्ट्री
79763	पी	प्रवीण सिंह	इन्फैन्ट्री
79764	एक्स	राहुल टोकस	इंजीनियर्स
79765	ए	अंकुर सिंह	इन्फैन्ट्री
79766	एच	रजनीश पाण्डेय	एसी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79767	एल	भुवनेश कुमार	इन्फैन्ट्री
79768	एन	अभिषेक चतुर्वेदी	मैक
79769	डब्ल्यू	प्रतीक बीडकर	सिग्नल्स
79773	वाई	विक्रम सिंह	एओसी
79774	एफ	डी सेहगल	आर्टी
79776	एम	कुलविन्द्र सिंह	आर्टी
79777	पी	इन्द्र सिंह बुंगला	इन्फैन्ट्री
79778	एक्स	तेजस्वी गोदारा	एसी
79779	ए	भारत यादव	इन्फैन्ट्री
79780	पी	अमन दीक्षित	एएससी
79781	एक्स	नितिन न्यौपाने	मैक
79783	एच	राजन कुमार सिंह	एओसी
79784	एल	सूरज एस कुमार	इन्फैन्ट्री
79785	एन	करण	सिग्नल्स
79786	डब्ल्यू	शोविक शुब्रा दत्ता	आर्टी
79787	वाई	बिलाल अहमद शाह	एएससी
79788	एफ	अक्षय कुमार	ईएमई
79789	के	मोरे प्रशांत पान्डुरंग	इंजीनियर्स
79792	के	अमन जैन	मैक
79793	एम	गगनदीप जोशी	इन्फैन्ट्री
79794	पी	सौरव कुमार	आर्टी
79795	एक्स	मोहम्मद मोइन उद्दीन	इंजीनियर्स
79796	ए	धनंजय कुमार सिंह	आर्टी
79797	एच	प्रशांत परषुराम गुरव	इन्फैन्ट्री
79798	एल	अत्ति नरेश कुमार	एएडी
79800	एक्स	शशांक जायसवाल	इन्फैन्ट्री
79801	ए	राहुल कुमार	इंजीनियर्स
79803	एल	मृदुल सनवाल	एसी
79804	एन	मुनीष शर्मा	इन्फैन्ट्री
79805	डब्ल्यू	राहुल रोका	इन्फैन्ट्री
79806	वाई	विवेन्द्र सिंह शेखावत	आर्टी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79807	एफ	साहिल महाजन	आर्टी
79808	के	कामरान निज्जर	आर्टी
79809	एम	भुवन भारद्वाज	एसी
79810	एफ	अभिनव दूबे	इंजीनियर्स
79811	के	सारांश अग्निहोत्री	इन्फैन्ट्री
79812	एम	जगताप समीर संभाजी	इन्फैन्ट्री
79813	पी	दिव्य प्रकाश	आर्टी
79814	एक्स	परमवीर सिंह रंधावा	इन्फैन्ट्री
79815	ए	अशोक	एएससी
79816	एच	अनमोल चोपड़ा	इन्फैन्ट्री
79817	एल	सेतु उपाध्याय	इन्फैन्ट्री
79818	एन	शशांक श्रीवास्तव	इन्फैन्ट्री
79819	डब्ल्यू	रोमिल अन्ना	आर्टी
79820	एल	सुनील कुमार गजराज	एओसी
79821	एन	अरविन्दर सिंह पुरी	सिग्नल्स
79822	डब्ल्यू	रोहित कपूर	एएडी
79823	वाई	अभिषेक शर्मा	आर्टी
79824	एफ	विशाल झा	इन्फैन्ट्री
79825	के	कविनिलवन आर सी	सिग्नल्स
79826	एम	शिवेन्दु	इन्फैन्ट्री
79827	पी	के श्रीराम रन्जीत	इन्फैन्ट्री
79828	एक्स	पुनीत	ईएमई
79829	ए	अभिषेक ठाकुर	इन्फैन्ट्री
79830	पी	अकुला मंजूनाथ	इंजीनियर्स
79831	एक्स	पीयुष पंवार	एएससी
79832	ए	कोचे विवेक मधुकर	इन्फैन्ट्री
79833	एच	निंबोरे सचिन नंदकुमार	आर्टी
79834	एल	प्रियेष एम सी	इन्ट
79835	एन	पार्थ रॉय	मैक
79836	डब्ल्यू	अरुण कुमार	इन्फैन्ट्री
79837	वाई	अभिषेक	इंजीनियर्स

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79838	एफ	अर्जुन कुमार	एओसी
79839	के	दीपक कुमार पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
79841	एफ	रणजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
79842	के	हर्षित मित्तल	मैक
79843	एम	अभयजीत सिंह	एएडी
79844	पी	महाजन अभिजीत दिलीपकुमार	एसी
79847	एच	डब्ल्यू नींगसन काइरेंग	इन्फैन्ट्री
79850	एच	राजेश जीरु	आर्टी
79852	एन	अदीब सिंधी	आर्टी
79853	डब्ल्यू	शिवम	एएडी
79854	वाई	अंकित कुमार त्यागी	आर्टी
79855	एफ	अमित नैन	इन्फैन्ट्री
79856	के	अमन गुप्ता	आर्टी
79857	एम	अनुराग जसवाल	इंजीनियर्स
79858	पी	अनुराग कुमार	एएससी
79859	एक्स	सौरभ कुमार	इन्फैन्ट्री
79860	एम	संदीप कुमार	एसी
79861	पी	संदीप कुमार	इन्फैन्ट्री
79862	एक्स	अशोक शंकर गोगोई	इन्फैन्ट्री
79863	ए	विशाल सिंह	इन्फैन्ट्री
79864	एच	शिवम दूबे	इंजीनियर्स
79865	एल	सुधीर मलिक	एओसी
79866	एन	ईशनाज सिंह	इन्फैन्ट्री
79867	डब्ल्यू	शंशाक दलाल	एसी
79869	एफ	अजय कुमार	सिग्नल्स
79870	डब्ल्यू	अभिनव गुप्ता	इन्ट
79871	वाई	शगुन	इन्फैन्ट्री
79872	एफ	पीयुष कुमार तिवारी	इन्फैन्ट्री
79873	के	अपूर्व महन्त	इन्फैन्ट्री
79874	एम	गगनजीत सिंह दुग्गल	एएससी
79875	पी	रमेश शाह	एएससी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79876	एक्स	चरनजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
79877	ए	नितिन बेलवाल	इन्फैन्ट्री
79878	एच	तपेश यादव	इन्फैन्ट्री
79880	ए	पारस कोच्चर	इंजीनियर्स
79881	एच	सुप्रीत सिंह काहलों	एसी
79882	एल	हाअबम राहुल सिंह	इन्फैन्ट्री
79884	डब्ल्यू	अविनाश बाबन खतोडे	आर्टी
79885	वाई	सर्वोदय टाक	इन्फैन्ट्री
79886	एफ	विवेक सिंह जस्याल	एसी
79887	के	विवेक शर्मा	इंजीनियर्स
79888	एम	विनोद शर्मा	आर्टी
79889	पी	निकम राकेश अशोक	आर्टी
79890	के	तरुण कुमार	इन्फैन्ट्री
79891	एम	सुनील कुमार	आर्टी
79892	पी	सूर्यालोक दत्ता	इन्फैन्ट्री
79893	एक्स	राजन झा	इन्फैन्ट्री
79894	ए	अंकुर लोहछाब	सिग्नल्स
79895	एच	विवेक कुमार चौहान	इन्फैन्ट्री
79897	एन	राजीव कुमार राव	आर्टी
79898	डब्ल्यू	सत्यव्रत चौबे	आर्टी
79899	वाई	टी जे प्रजिन	ईएमई
79900	एच	तरुण राणा	एएडी
79902	एन	राहुल सुरेश नायर	एओसी
79903	डब्ल्यू	दिपककुमार सी	एएससी
79905	एफ	आदित्य विजय	इंजीनियर्स
79907	एम	शिवम भारती	एसी
79908	पी	कामेन्द्र सिंह	एएससी
79909	एक्स	अम्बेश चारण	मैक
79910	एम	मनबीर सिंह	इन्फैन्ट्री
79911	पी	आशुतोष श्रीवास्तव	इन्फैन्ट्री
79912	एक्स	हिमांशु पाण्डे	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79913	ए	अभिषेक शर्मा	सिग्नल्स
79914	एच	सत्यनारायण एन	आर्टी
79915	एल	दीपांकर त्यागी	इंजीनियर्स
79916	एन	मोहित कुमार	एओसी
79917	डब्ल्यू	मनन देवेन्द्र पाण्डया	एविएशन
79918	वाई	विक्रान्त	इन्फैन्ट्री
79919	एफ	राजेश कुमार मुखर्जी	सिग्नल्स
79920	डब्ल्यू	एन श्रीराम	इन्फैन्ट्री
79922	एफ	शिंदे विश्वजीत विजय	आर्टी
79923	के	अमन विर्क	एसी
79924	एम	आकाश कुमार सिंह	एएडी
79925	पी	अंकित कालिया	इन्फैन्ट्री
79926	एक्स	अमित कुमार पाण्डेय	आर्टी
79927	ए	राकेश कुमार	आर्टी
79929	एल	सुशांत कुमार	आर्टी
79930	ए	देबाषिष पुष्ती	एसी
79931	एच	शेट्टी सागर दिवाकर	इन्फैन्ट्री
79932	एल	जाधव प्रतीक बलीराम	आर्टी
79933	एन	मोहित जैन	इन्फैन्ट्री
79935	वाई	नालूरी आदित्य	इंजीनियर्स
79937	के	सिद्धार्थ सिंह	सिग्नल्स
79938	एम	ताहिरुल्ला बेग	इन्फैन्ट्री
79939	पी	निशान्त अवस्थी	इन्फैन्ट्री
79940	के	सुनील शर्मा	एओसी
79941	एम	सिद्धार्थ माथुर	आर्टी
79942	पी	अंशुल गोयल	इन्फैन्ट्री
79943	एक्स	ईन्द्रनील चौधरी	इन्फैन्ट्री
79944	ए	ऋषभ पावडिया	एएससी
79945	एच	भव्य शर्मा	सिग्नल्स
79946	एल	करंदीकर अजिंक्य अनिल	इन्फैन्ट्री
79947	एन	गिरिजापति साई शरत	आर्टी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79948	डब्ल्यू	शिवानन्द जी पी	इंजीनियर्स
79950	एन	राहुल	एएससी
79951	डब्ल्यू	सैय्यद अबुल	आर्टी
79952	वाई	कौशल शर्मा	इंजीनियर्स
79953	एफ	बाजु ठिल्लों	एसी
79954	के	राजबीर श्योरान	ईन्ट
79955	एम	आशुतोष शर्मा	इन्फैन्ट्री
79956	पी	शंशाक दुबे	ईएमई
79957	एक्स	संकर राव आर	इन्फैन्ट्री
79958	ए	सिद्धार्थ सिंह	एसी
79960	एक्स	अनिश कुमार राऊत	एएडी
79961	ए	प्रदीप सग्गड़	आर्टी
79962	एच	अभिषेक कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
79964	एन	शुभ सलूजा	इन्फैन्ट्री
79965	डब्ल्यू	मनिंदर सिंह	इंजीनियर्स
79966	वाई	वरुण बिष्ट	इन्फैन्ट्री
79969	एम	नितीश कुमार	एविएशन
79970	एफ	रोहित शर्मा	इंजीनियर्स
79971	के	कुमार दिव्यई अग्निहोत्री	इन्फैन्ट्री
79972	एम	विक्रम बलराज सिंह	एसी
79973	पी	अरुण कादयान	एओसी
79974	एक्स	कुणाल पिल्लै	सिग्नल्स
79975	ए	जयव्रत सिंह राघव	मैक
79976	एच	अभिषेक शेखावत	एसी
79977	एल	सुयश बलानी	इन्फैन्ट्री
79978	एन	कवि प्रतीक नारायण	इन्फैन्ट्री
79982	डब्ल्यू	विकास सिंह राणा	आर्टी
79984	एफ	अक्षय पाण्डेय	एएससी
79985	के	आदित्य उनियाल	इंजीनियर्स
79986	एम	परमबीर सिंह	इन्फैन्ट्री
79987	पी	अर्चित शर्मा	मैक

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
79988	एक्स	सुमित सकलानी	आर्टी
79989	ए	विभाश दुबे	एएससी
79990	पी	एन एस षण्मुगम	ईएमई
79991	एक्स	जोनाथन देशमोन्ड डेविन जोन्स	इन्फैन्ट्री
79993	एच	कुमार गौरव	आर्टी
79995	एन	मगेश प्रसन्ना एस	इन्फैन्ट्री
79996	डब्ल्यू	निहाल निहालानी	आर्टी
79997	वाई	करण लूथरा	इन्फैन्ट्री
79998	एफ	आशीष मिश्रा	एसी
79999	के	नितेश गैरोला	एओसी
80000	एल	राहुल सिंह	इन्फैन्ट्री

निम्नलिखित तीन कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79739वाई पवनदीप सिंह (ईन्ट) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79738डब्ल्यू चन्द्र भूषण मिश्रा (सिग्नल्स) के नीचे, आई सी संख्या 79742वाई चेतन यादव (सिग्नल्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79741डब्ल्यू अमित कुमार धेतरवाल (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 79928एच कुमार विवेक (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79927ए राकेश कुमार (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(लें0 के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से)

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 133 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78574वाई सुमीत कर्नाटक (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78573 डब्ल्यू साहिल कटोच (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 78670एन पाठक वेदांग किशोर (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78669वाई कृतपाल सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(लें0 के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से)

निम्नलिखित नौ कैडेट्स जो कि 133 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78482एम योगेश सिंह महर (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78481के अतुल वर्मा (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 78524एन दिनेश सिंह बिष्ट (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78523एलमनीष शर्मा (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 78718डब्ल्यू विसाग सी पी (इंजीनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78717एन समीर एम चव्हाण (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 78690एफ राजेश्वर सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78689एम अंशुमान जोशी (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 78617एच विवेक गिरी (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78616ए लखवीर सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 78519एच गौतम सी ए (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78518ए जय पाल सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 78562के दीपक कुमार (एएडी) की

वरिष्ठता आई सी संख्या 78561एफप्रशांत राना (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 78424एच आलोक मिश्रा (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78423ए स्वर्णजीत सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 78472एच अक्षय डडवाल (सिग्नल्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78471ए वरुण जी (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित 07 (सात) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 21 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं को 08 जून 2013 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हे 10 जून 2012 से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

यू/1245 गडिला सिद्धार्थ रेड्डी (आई सी 78126 एम), सिगनल्स की वरीयता यू/1194 अपूर्व गुप्ता (आई सी 78125 के) आर्टी के नीचे, यू/1206 निलय कुमार (आई सी 78161 पी), एसी की वरीयता टी/7279 अमित दलाल (आई सी 78160एम), सिगनल्स के नीचे, यू/1228 राहुल शर्मा (आई सी 78214 एच), सिगनल्स की वरीयता टी/7284 अनंत महेश्वरी (आई सी 78213ए), आर्टी के नीचे, यू/1175 राहुल धर्मावत (आई सी 78237 के), इन्ट की वरीयता टी/7258 विशाल वेनुगोपाल (आई सी 78236 एफ), इन्फैन्ट्री के नीचे, यू/1235 नितिन बिष्ट (आई सी 78270 एफ), इंजीनियर्स की वरीयता यू/1178 आशीष अहलुवालिया (आई सी 78269 एम) ईएमई के नीचे, यू/1196 गोविन्द घिन्टाला (आई सी 78271 के), ईएमई की वरीयता यू/1178 आशीष अहलुवालिया (आई सी 78269 एम) ईएमई के नीचे तथा टी/7329 हिमांशु चौबे (आई सी 78272 एम), ईएमई के ऊपर, यू/1236 एस गूहन (आई सी 78319 एम), सिगनल्स की वरीयता टी/7340 जनार्दन जी वी वी (आई सी 78318 के), एएससी के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र, भाग 1 अनुभाग 4 में दिनांक 29 नवम्बर 2014 को प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित 33 (तैयतीस) जैण्टलमैन कैडेड्स (जी सी) जो कि 116 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 14 दिसम्बर 2013 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 14 दिसम्बर 2012 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/7440 रतन सिंह (आई सी 78830 एच), सिगनल्स की वरीयता टी/7361 हरदीप सिंह (आई सी 78832 एन) इन्फैन्ट्री के ऊपर, टी/7400 दिनेश चन्द (आई सी 78831 एच), आर्टी की वरीयता टी/7361 हरदीप सिंह (आई सी 78832 एन) इन्फैन्ट्री के ऊपर, टी/7404 विशाल शर्मा (आई सी 78839 एक्स), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7375 अनुज कुमार (आई सी 78838पी) ईएमई के नीचे, टी/7387 सूरज मिश्रा (आई सी 78840 एम) ईएमई की वरीयता टी/7375 अनुज कुमार (आई सी 78838पी) ईएमई के नीचे, टी/7368 अंकुर कुमार पाल (आई सी 78841पी), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7375 अनुज कुमार (आई सी 78838पी) ईएमई के नीचे, टी/7419 आलोक प्रताप सिंह (आई सी 78842 एक्स), एएडी की वरीयता टी/7375 अनुज कुमार (आई सी 78838पी) ईएमई के नीचे तथा टी/7371 जोतपाल सिंह चौमा (आई सी 78843ए) एसी के ऊपर, टी/7407 गौरव रघुवंशी (आई सी 78847 डब्ल्यू), सिगनल्स की वरीयता टी/7356 हरमीत सिंह रंधावा (आई सी 78846एन)इंजीनियर्स के नीचे, टी/7385 तरू अग्रवाल (आई सी 78861 एच), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7366 आशीष हुड्डा (आई सी 78860ए) मैक इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7348 तेजेन्द्र मलिक (आई सी 78862 एल), ईएमई की वरीयता टी/7366 आशीष हुड्डा (आई सी 78860ए) मैक इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7448 राहुल धीमान (आई सी 78863 एन), ईएमई की वरीयता टी/7366 आशीष हुड्डा (आई सी 78860ए) मैक इन्फैन्ट्री के नीचे तथा टी/7403 दीपक यादव (आई सी 78864 डब्ल्यू), आर्टी के ऊपर, टी/7449 कनोजिया भरत कल्लुलाल (आई सी 78865 वाई), इन्फैन्ट्री टी/7403 दीपक यादव (आई सी 78864 डब्ल्यू), आर्टी के नीचे, टी/7401 राहुल शर्मा (आई सी 78872 पी), आर्टी की वरीयता टी/7350 निपुण कुमार (आई सी 78871 एम), इंजीनियर्स के नीचे, टी/7370 हविन्दर कुमार (आई सी 78879 वाई) ईएमई की वरीयता टी/7378 मयंक अशोक (आई सी 78877 एन), ईएमई के नीचे, टी/7367 नीरज कुमार (आई सी 78882 वाई), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7347 राहुल कुमार पाण्डे (आई सी 78881 डब्ल्यू), ईन्ट के नीचे, टी/7436 जोशी मंगेश शरद (आई सी 78883 एफ), ईएमई की वरीयता टी/7347 राहुल कुमार पांडे (आई सी 78881 डब्ल्यू), ईन्ट के नीचे तथा टी/7384 चैतन्य दलाल (आई सी 78884 के), एओसी के ऊपर, टी/7379 संदीप मेहता (आई सी 78885 एम), इन्फैन्ट्री टी/7384 चैतन्य दलाल (आई सी 78884 के), एओसी के नीचे, टी/7422 विनीत बिंदल (आई सी 78888ए), एओसी की वरीयता टी/7397 रोबिन त्यागी (आई सी 78887 एक्स) एओसी के नीचे, टी/7409 विक्रम सिंह (आई सी 78890 एक्स), इंजीनियर्स की वरीयता टी/7382 बाबर लियाकत (आई सी 78889 एच), सिगनल्स के नीचे, टी/7424 जगाती रूद्र भुवन (आई सी 78892 एच), आर्टी की वरीयता टी/7358 करन शर्मा (आई सी 78891ए) एसी के नीचे, टी/7445 अनिल कुमार शर्मा (आई सी 78894 एन), एएससी की वरीयता टी/7358 करन शर्मा (आई सी 78891ए), एसी के नीचे, टी/7360 कमल स्वाई (आई सी 78895 डब्ल्यू), इंजीनियर्स की वरीयता टी/7358 करन शर्मा (आई सी 78891ए), एसी के नीचे, टी/7421 भूपिंदर सैनी (आई सी 78896 वाई), ईएमई की वरीयता टी/7358 करन शर्मा (आई सी 78891ए), एसी के नीचे, टी/7444 अवतार सिंह नरवाल (आई सी 78897 एफ), एविएशन की वरीयता टी/7358 करन शर्मा (आई सी 78891ए), एसी के नीचे, टी/7412 एस नरेश (आई सी 78901 वाई), ईएमई की वरीयता टी/7358 करन शर्मा (आई सी 78891ए), एसी के नीचे तथा टी/7357 ईशान वशिष्ठ (आई सी 78902 एफ), इंजीनियर्स के ऊपर, टी/7355 पार्थ प्रबाल (आई सी 78907 ए), इंजीनियर्स की वरीयता टी/7388 निखिल माधव सावंत (आई सी 78905 पी), इंजीनियर्स के नीचे तथा टी/7365 चंदन सिंह मेहता (आई सी 78908 एच), इन्फैन्ट्री के ऊपर, टी/7374 विवेक आनंद गुप्ता (आई सी 78910 ए), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7414 प्रतीक श्रीवास्तव (आई सी 78909 एल), ईएमई के नीचे, टी/7349 अनुराग

कुमार(आई सी 78913 एन), इंजीनियर्स की वरीयता टी/7453 एजिलन टी (आई सी 78912 एल), इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7443 नीमित नीरूला (आई सी 78919 पी), एएडी की वरीयता टी/7423 प्रतीक सिंह राव (आई सी 78918 एम), सिगनल्स के नीचे, टी/7418 ऋषि राज मलिक (आई सी 78921 एम) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7332 गुरुचरण आर वी (आई सी 78920 के), इंजीनियर्स के नीचे, टी/7389 नरेंद्र के(आई सी 78925 एच), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7392 प्रमदीप सिंह (आई सी 78924ए), इंजीनियर्स के नीचे, टी/7442 रवदीप सिंह (आई सी 78930 एन), आर्टी की वरीयता टी/7394 लक्ष्य सचदेवा (आई सी 78928 डब्ल्यू), मैक इन्फैन्ट्री के नीचे तथा टी/7454 के आर अनुराज (आई सी 78931 डब्ल्यू), सिगनल्स के उपर, टी/7396 अश्विन त्यागी (आई सी 78933 एफ), ईएमई की वरीयता टी/7413 महिधर सिंह (आई सी 78932 वाई), ईएमई के नीचे तथा टी/7432 संजीव तिवारी (आई सी 78935 एम), एससी की वरीयता यू/1231 संचित किरपाल सिंह (आई सी 78934 के), सिगनल्स के नीचे, जिनका नाम भारत के राजपत्र, भाग 1 अनुभाग 4 में दिनांक 29 नवम्बर 2014 को प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित 40 (चालीस) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 22ए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) और यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं को 13 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 15 दिसम्बर 2013 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

आई एम ए संख्या	नाम	आई सी संख्या		आर्म /सर्विस
टी/7623	अभिषेक कटोच	80118	एम	ईएमई
टी/7589	अभिषेक कौशिक	80119	पी	इंजिनियर्स
टी/7613	गुलशन राय	80120	के	सिगनल्स
टी/7602	यतिन कटारिया	80122	पी	सिगनल्स
टी/7588	विकास यादव	80123	एक्स	एविएशन
टी/7596	सुमीत सोढी	80124	ए	मैक इन्फैन्ट्री
टी/7605	अजिंक्य अरविंद पोवार	80126	एल	सिगनल्स
टी/7601	आनन्द श्रीकुमार सी	80127	एन	इंजिनियर्स
टी/7587	प्रिंस जोसफ	80129	वाई	सिगनल्स
टी/7583	सुधांशु त्यागी	80130	एन	एएडी
टी/7577	अशोक कुमार	80131	डब्ल्यू	इंजिनियर्स
टी/7606	अभिषेक ठाकुर	80132	वाई	ईएमई
टी/7590	राजपाल सिंह ढिल्लों	80134	के	इन्फैन्ट्री
टी/7600	सुधांशु मिश्रा	80135	एम	इंजिनियर्स
टी/7614	अभिषेक मिश्रा	80137	एक्स	सिगनल्स
टी/7631	कुनाल कपूर	80139	एच	इंजिनियर्स
टी/7604	भार्गव पी बेले	80144	एन	एएडी
टी/7591	अजेश पंकजाक्शन	80146	वाई	इंजिनियर्स

आई एम ए संख्या	नाम	आई सी संख्या		आर्म / सर्विस
टी/7625	सम्प्रति जैन	80147	एफ	सिगनल्स
टी/7581	गौरव अग्रवाल	80148	के	सिगनल्स
टी/7610	पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़	80149	एम	एओसी
टी/7597	निखिल डे	80150	एफ	सिगनल्स
टी/7628	रमन कुमार	80152	एम	सिगनल्स
टी/7582	सौरभ पाइक	80153	पी	ईएमई
टी/7615	जितिन बतरा	80154	एक्स	एएससी
टी/7612	संदीप कुमार यादव	80155	ए	सिगनल्स
यू/1323	अभिषेक चतुर्वेदी	80156	एच	ईएमई
टी/7599	दीपक	80158	एन	सिगनल्स
टी/7592	मनु पिल्लई ए	80159	डब्ल्यू	इंजिनियर्स
टी/7576	लक्ष्य सैनी	80160	एल	इंजिनियर्स
टी/7618	राहुल मलिक	80162	डब्ल्यू	इंजिनियर्स
टी/7575	कृष्ण कुमार बेनीवाल	80163	वाई	इंजिनियर्स
टी/7621	आर किशन	80165	के	एविएशन
टी/7620	शशि कान्त द्विवेदी	80166	एम	आर्टी
टी/7579	सूतानू बनर्जी	80167	पी	सिगनल्स
टी/7524	एस गिरिधर	80168	एक्स	इंजिनियर्स
टी/7627	मो नुरुज्जमन	80172	ए	इंजिनियर्स
टी/7578	नीरज सिंह	80173	एच	इंजिनियर्स
टी/7525	पी दिपिन नायर	80174	एल	ईएमई
टी/7513	अनबरासु एस	80178	एफ	सिगनल्स

2 निम्नलिखित 01(एक) अधिकारी को भी सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत ले0 के पद पर 13 दिसम्बर 2014 (पूर्वाह्न) से स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

टी/7574	गोकूल एस जी	80176	डब्ल्यू	ईसी
---------	-------------	-------	---------	-----

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 07 (सात) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 21 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस

पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
21 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम				
यू/1175	राहुल धर्मावत	46572ए	सिगनल्स	01 जुलाई 11
यू/1196	गोविन्द धिन्टाला	46593डब्ल्यू	ईएमई	01 जुलाई 11
यू/1206	निलय कुमार	46603पी	ईएमई	01 जुलाई 11
यू/1228	राहुल शर्मा	46625एन	सिगनल्स	01 जुलाई 11
यू/1235	नितिन बिष्ट	46632के	ईएमई	01 जुलाई 11
यू/1236	एस गूहन	46633एम	सिगनल्स	01 जुलाई 11
यू/1245	गडिला सिद्धार्थ रेड्डी	46642एन	सिगनल्स	01 जुलाई 11

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित 33 (तैंतीस) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 116 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
116 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7348	तेजेन्द्र मलिक	46994 एल	सिगनल्स	08 जनवरी 13
टी/7349	अनुराग कुमार	46995 एन	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7355	पार्थ प्रबाल	47001 एन	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7360	कमल स्वाई	47006 एम	इंजिनियर्स	08 जनवरी 13
टी/7367	नीरज कुमार	47013 एच	सिगनल्स	08 जनवरी 13
टी/7368	अंकुर कुमार पाल	47014 एल	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7370	हविन्दर कुमार	47016 डब्ल्यू	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7374	विवेक आनंद गुप्ता	47020 वाई	सिगनल्स	08 जनवरी 13
टी/7379	संदीप मेहता	47025 एक्स	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7385	तरु अग्रवाल	47031 एल	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7387	सूरज मिश्रा	47033 डब्ल्यू	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7389	नरेंद्र के	47035 एफ	सिगनल्स	08 जनवरी 13
टी/7396	अश्विन त्यागी	47041 पी	सिगनल्स	08 जनवरी 13

टी/7400	दिनेश चन्द	47045 एल	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7401	राहुल शर्मा	47046 एन	इंजिनियर्स	08 जनवरी 13
टी/7404	विशाल शर्मा	47049 एफ	सिगनल्स	08 जनवरी 13
टी/7407	गौरव रघुवंशी	47052 एफ	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7409	विक्रम सिंह	47054 एम	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7443	नीमित नीरूला	47055 पी	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7412	एस नरेश	47058 एच	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7418	ऋषि राज मलिक	47064 डब्ल्यू	सिगनल्स	08 जनवरी 13
टी/7419	आलोक प्रताप सिंह	47065 वाई	ईएमई	08 जनवरी 13
टी/7421	भुपिंदर सैनी	47067 के	इंजिनियर्स	08 जनवरी 13
टी/7422	विनीत बिंदल	47068 एम	इंजिनियर्स	08 जनवरी 13
टी/7424	जगाती रुद्र भुवन	47070 के	सिगनल्स	08 जनवरी 13
टी/7432	संजीव तिवारी	47078 डब्ल्यू	ईएमई	14 जनवरी 13
टी/7436	जोशी मंगेश शरद	47082 वाई	ईएमई	18 जनवरी 13
टी/7440	रतन सिंह	47086 पी	सिगनल्स	22 जनवरी 13
टी/7442	रवदीप सिंह	47088 ए	सिगनल्स	22 जनवरी 13
टी/7444	अवतार सिंह नरवाल	47089 एच	सिगनल्स	17 जनवरी 13
टी/7445	अनिल कुमार शर्मा	47090 एक्स	सिगनल्स	21 जनवरी 13
टी/7448	राहुल धीमान	47093 एल	सिगनल्स	17 जनवरी 13
टी/7449	कनोजिया भरत कल्लुलाल	47094 एन	सिगनल्स	17 जनवरी 13

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित 36 (छत्तीस) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7575	कृष्ण कुमार बेनीवाल	47772	एच	ईएमई 14 जनवरी 14
टी/7576	लक्ष्य सैनी	47773	एल	ईएमई 14 जनवरी 14
टी/7577	अशोक कुमार	47774	एन	इंजिनियर्स 14 जनवरी 14
टी/7578	नीरज सिंह	47775	डब्ल्यू	ईएमई 14 जनवरी 14
टी/7579	सूतानू बनर्जी	47776	वाई	ईएमई 14 जनवरी 14

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या		आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
टी / 7581	गौरव अग्रवाल	47778	के	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7582	सौरभ पाइक	47779	एम	इंजिनियर्स	14 जनवरी 14
टी / 7583	सुधौंशु त्यागी	47780	एफ	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7587	प्रिंस जोसफ	47784	एक्स	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7588	विकास यादव	47785	ए	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7589	अभिषेक कौशिक	47786	एच	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7590	राजपाल सिंह ढिल्लों	47787	एल	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7591	अजेश पंकजाक्शन	47788	एन	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7592	मनु पिल्लई ए	47789	डब्ल्यू	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7596	सुमीत सोढी	47793	वाई	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7597	निखिल डे	47794	एफ	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7599	दीपक	47795	के	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7600	सुधांशु मिश्रा	47796	एम	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7601	आनन्द श्रीकुमार सी	47797	पी	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7602	यतिन कटारिया	47798	एक्स	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7604	भार्गव पी बेले	47800	के	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7605	अजिंक्य अरविंद पोवार	47801	एम	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7606	अभिषेक ठाकुर	47802	पी	इंजिनियर्स	14 जनवरी 14
टी / 7610	पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़	47805	एच	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7612	संदीप कुमार यादव	47807	एन	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7613	गुलशन राय	47808	डब्ल्यू	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7614	अभिषेक मिश्रा	47809	वाई	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7615	जितिन बतरा	47810	एन	ईएमई	14 जनवरी 14
टी / 7618	राहुल मलिक	47813	एफ	इंजिनियर्स	14 जनवरी 14
टी / 7620	शशि कान्त द्विवेदी	47815	एम	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7621	आर किशन	47816	पी	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7623	अभिषेक कटोच	47818	ए	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी / 7625	सम्प्रति जैन	47820	एक्स	ईएमई	16 जनवरी 14
टी / 7627	मो नुरुज्जमन	47822	एच	इंजिनियर्स	26 जनवरी 14
टी / 7628	रमन कुमार	47823	एल	सिगनल्स	26 जनवरी 14
टी / 7631	कुनाल कपूर	47826	वाई	ईएमई	16 फरवरी 14

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है ।

निम्नलिखित 04 (चार) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 22 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (यू ई एस) पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7513	अनबरासु एस	47418 एन	सिगनल्स	15 जुलाई 13
टी/7524	एस गिरिधर	47429 ए	इंजिनियर्स	15 जुलाई 13
टी/7525	पी दिपिन नायर	47430 पी	ईएमई	15 जुलाई 13
22 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम				
यू/1323	अभिषेक चतुर्वेदी	47539 पी	ईएमई	01 जुलाई 12

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

नियमित सेना

विशेष आयोग

निम्नलिखित 23 जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि एस सी ओ-33 पाठ्यक्रम के हैं, को सेना अनुदेश 5/97 के अंतर्गत संलिखित सेना सेवा में 13 दिसम्बर 2014 से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है ।

ओ टी ए संख्या	सैन्य संख्या		पैत्रक आर्म्स/सर्विस	नाम	एस सी संख्या		आवंटित आर्म्स/सर्विस
एस-1045	4088257	के	इन्फैन्ट्री	धीरज सिंह बिष्ट	00868	ए	एओसी
एस-1042	14936728	एल	इन्फैन्ट्री	महेन्द्र पाल	00869	एच	इन्फैन्ट्री
एस-1059	5350670	एल	इन्फैन्ट्री	संतोष गुरुंग	00870	एक्स	इन्फैन्ट्री
एस-1051	15789394	पी	एएडी	विपीन सिंह	00871	ए	ईएमई
एस-1060	15788776	एम	एएडी	नीरज उपाध्याय	00872	एच	इंजिनियर्स
एस-1061	9106704	एच	इन्फैन्ट्री	राम कृष्ण	00873	एल	इन्फैन्ट्री
एस-1053	15770963	एच	एएडी	पवन कुमार उपाध्याय	00874	एन	एएडी
एस-1058	4005594	एच	इन्फैन्ट्री	नन्दन सिंह	00875	डब्ल्यू	एएससी
एस-1044	14665725	एफ	ईएमई	गौरव कुमार	00876	वाई	आर्टी
एस-1064	13626092	एम	इन्फैन्ट्री	महाडीक दिपेश नंदकिशोर	00877	एफ	इन्फैन्ट्री
एस-1040	4372246	एम	इन्फैन्ट्री	संगीत थापा	00878	के	एएससी
एस-1054	15688081	पी	सिग्नल्स	राहुल आर एस	00879	एम	सिग्नल्स
एस-1057	15337345	के	इंजिनियर्स	कृष्णा कुमार थापा	00880	एफ	इन्फैन्ट्री
एस-1048	4199639	एच	इन्फैन्ट्री	निकलेश कुमार लोहनी	00881	के	मैक इन्फैन्ट्री
एस-1046	15675490	के	सिग्नल्स	आलूरु रामचंद्र प्रसाद	00882	एम	सिग्नल्स

ओ टी ए संख्या	सैन्य संख्या		पैत्रक आर्म्स / सर्विस	नाम	एस सी संख्या		आवंटित आर्म्स / सर्विस
एस-1047	14678200	डब्ल्यू	ईएमई	पाटिल निंबा भिला	00883	पी	आर्टी
एस-1062	15695377	डब्ल्यू	सिग्नल्स	जितिन एम	00884	एक्स	इन्फैन्ट्री
एस-1063	15786382	पी	एएडी	मोहम्मद रफी खान	00885	ए	आर्टी
एस-1056	9513002	ए	आईसी	कुलवन्त डबास	00886	एच	ईएमई
एस-1050	15147762	ए	आर्टी	जितेन्द्र सिंह राठौड	00888	एन	एसी
एस-1043	15670497	के	सिग्नल्स	परमिंदर सिंह	00889	डब्ल्यू	इंजिनियर्स
एस-1052	3198528	एच	इन्फैन्ट्री	दलविन्दर सिंह	00890	एल	इन्फैन्ट्री

प्रदीप गोविन्दन
ले0 कर्नल
एएमएस 8बी

सेना शाखा

सं. 207, दिनांक 12 अगस्त 2015—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—
नियमित सेना
स्थायी आयोग

निम्नलिखित 116 जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 10+2 टी ई एस-24 पाठ्यक्रम के हैं, को 13 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है ।

आई सी संख्या		नाम	आर्म्स / सर्विस
80001	एन	प्रसनजीत दत्ता	आर्टी
80002	डब्ल्यू	आदिल मकबूल खान	ईएमई
80003	वाई	विवेक सिंह	ईएमई
80004	एफ	विवेक वर्मा	इंजिनियर्स
80005	के	अजय बिष्ट	इन्फैन्ट्री
80006	एम	कृष्णा प्रसाथ एस	इंजिनियर्स
80007	पी	सोनल चौहान	इन्फैन्ट्री
80008	एक्स	हर्ष दीप सिंह	इन्फैन्ट्री
80009	ए	पालाबोइना हेमंत राव	सिग्नल्स
80010	पी	विजय बिष्ट	इंजिनियर्स
80011	एक्स	विकास	ईएमई
80012	ए	तरुण कुमार	सिग्नल्स
80013	एच	एन अर्जुन सुधाकर	इंजिनियर्स
80014	एल	संजय सिंह चौहान	एसी
80015	एन	दिनेश मिश्रा	सिग्नल्स
80016	डब्ल्यू	नवनीत सिंह	इंजिनियर्स
80017	वाई	तन्मय राखे	सिग्नल्स

आई सी संख्या	नाम	आर्म्स / सर्विस
80018	एफ	योगेश पाण्डेय
80019	के	संकल्प शर्मा
80020	वाई	निशांक मिश्रा
80021	एफ	संचित श्रीवास्तव
80022	के	कुलदीप तिवारी
80023	एम	अनुज यादव
80024	पी	पंकज शर्मा
80025	एक्स	अपूर्व शर्मा
80026	ए	गौरव डालाकोटी
80027	एच	अक्षय पुरुषु
80028	एल	सौरभ कुमार जोशी
80029	एन	आशिष सिंह
80030	एच	अंकित कुमार
80031	एल	अभिमन्यु गणाचारि
80032	एन	अमित कुमार
80033	डब्ल्यू	संदीप खतिवोडा
80034	वाई	प्रवीन
80035	एफ	अरिजीत सिंघा
80036	के	भूपिन्द्र चौधरी
80037	एम	सी हरीश
80038	पी	उत्कर्ष शुक्ला
80039	एक्स	तोमाच्चन एम एस
80040	एम	प्रशांत कुमार सिंह
80041	पी	ए एस एन धीरज कुमार
80042	एक्स	विनीत सांगवान
80043	ए	पारस बिष्ट
80044	एच	तरनवीर सिंह
80045	एल	अभिनव कुमार चौधरी
80046	एन	लवप्रीत सिंह बाजवा
80047	डब्ल्यू	हरेन्द्र सिंह नेगी
80048	वाई	मनीष
80049	एफ	सुबोध बालयान
80050	डब्ल्यू	विराट चावला

आई सी संख्या	नाम	आर्म्स / सर्विस
80051	वाई	अरविंद सिंह धाकड़
80052	एफ	तेनहैबा ईरोम
80054	एम	गौरव सिंह
80055	पी	हिमांशु सिंह
80056	एक्स	आकर्ष अग्रवाल
80057	ए	प्रिंस तोमर
80058	एच	सरवन कुमार यादव
80059	एल	वैभव शर्मा
80060	ए	आकाश यादव
80061	एच	पी जी धूवा राव
80062	एल	अनुप सोलंकी
80063	एन	विशाल लांबा
80064	डब्ल्यू	राजेश राठोर
80065	वाई	प्रतीक गुलाबानी
80066	एफ	शशांक शिवशंकर बिरादर
80067	के	अभिलाष राय
80068	एम	सुधीर कुमार यादव
80069	पी	राजपाल सिंह गौड़
80070	के	मोहित भसीन
80071	एम	विवेक मलिक
80072	पी	अमित सिंह
80073	एक्स	चिरंजीव कुमार सोलंकी
80074	ए	अमित प्रताप
80075	एच	मोहित कुमार
80076	एल	आयूष बिष्ट
80077	एन	रवि गुलिया
80078	डब्ल्यू	रक्षित प्रियदर्शी
80079	वाई	अश्विनी कुमार ठाकुर
80080	एन	अनुभव भारद्वाज
80081	डब्ल्यू	मो. आसिफ अहमद
80082	वाई	अनुराग पुनिया
80083	एफ	आनंद सिंह
80084	के	हृदयकुमार के वी

आई सी संख्या		नाम	आर्म्स / सर्विस
80085	एम	संजीव कुमार	ईएमई
80086	पी	सिध्दांत राणा	सिग्नल्स
80087	एक्स	कामिल खान	इंजिनियर्स
80088	ए	सत्येंद्र वशिष्ठ	आर्टी
80089	एच	रोहित ओहदार	सिग्नल्स
80090	एक्स	पारस बजाज	एएडी
80091	ए	आशिष दुबे	इंजिनियर्स
80092	एच	सुशिल सहरावत	ईएमई
80093	एल	अर्पण कुमार माईती	ईएमई
80094	एन	दिव्यांक त्यागी	आर्टी
80095	डब्ल्यू	प्रशांत सोलंकी	इंजिनियर्स
80096	वाई	अजित मिश्रा	सिग्नल्स
80097	एफ	शिवम डागुर	सिग्नल्स
80098	के	लोहिताश्व पाण्डे	इन्फैन्ट्री
80099	एम	अनुराग कुमार सिंह	ईएमई
80100	डब्ल्यू	एस राघुल	एएडी
80101	वाई	चेतन जोशी	इंजिनियर्स
80102	एफ	विकास तिवारी	इंजिनियर्स
80103	के	गौरव राज्याण	इंजिनियर्स
80104	एम	विक्रम सिंह	ईएमई
80105	पी	अभिषेक डोभाल	इंजिनियर्स
80106	एक्स	विशेष आदित्य सिंह	इन्फैन्ट्री
80107	ए	सुमित सिंह	सिग्नल्स
80108	एच	अखिल के	इंजिनियर्स
80109	एल	अरुण दीप ताल्लुरु	ईएमई
80110	ए	मुकेश कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
80111	एच	अंगद सिंह	आर्मी एविएशन
80112	एल	मलविंदर सिंह ठाकुर	इंजिनियर्स
80113	एन	सत्येंद्र सिंह	इन्फैन्ट्री
80114	डब्ल्यू	रोशन राज	इन्ट
80115	वाई	आषुतोष यादव	मैक इन्फैन्ट्री
80116	एफ	सिद्धार्थ सोलंकी	इंजिनियर्स
80117	के	श्री श्याम वर्मा पी सी	इन्फैन्ट्री

ले० के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से

निम्नलिखित एक कैडेट जो कि 132 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से स्थाई रूप से विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78013 के बोरावाके अपूर्व सुहास (इंजिनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78012 एफ विष्णु पिल्लई (ईएमई) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले० के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से

निम्नलिखित एक कैडेट जो कि 132 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से स्थाई रूप से विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 77839 एल अभिक गुप्ता (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 77838 एच अनिमेष चक्रवर्ती (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले० के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 133 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से स्थाई रूप से विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78381 वाई राजदीप सिंह (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78380 डब्ल्यू आशीष सिंह मोर (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 78577 एम कुलदीप सिंह (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78576 के निखिल एम (सिग्नल्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले० के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से

निम्नलिखित छः कैडेट जो कि 134 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से स्थाई रूप से विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79224 वाई राजेश कुमार यादव (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79223 डब्ल्यू साकेत शाडिल्य (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 79158 एफ अभिषेक शर्मा (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79157 वाई सर्वेश सिंह यादव (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 79132 एम जगतार जोहल (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79131 के राहुल कुमार सिंह (एएससी) के नीचे आई सी संख्या 79140 एल हिवाले फ्रान्सीस रॉबीन (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79139 डब्ल्यू अजीत यादव (आर्टी) के नीचे आई सी संख्या 79211 एफ सोमेश सिंह चौधरी (एविएशन) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79210 वाई रेवना जयचन्द्रन विष्णु नायडू (इन्फैन्ट्री) के नीचे तथा आई सी संख्या 79309 पी सोनु सिंह (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78308 एम मोहित श्रीवास्तव (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

ले० के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 134 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से स्थाई रूप से विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78993 डब्ल्यू नायकुडे सतीश आर (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78992 एन साकेत कुमार सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 79103 एक्स अमित कुमार सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79102 पी रमेश पाण्डी जे (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

एस एन मिश्रा
ले० कर्नल
एमएस 8बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 208, दिनांक 13 अगस्त 2015—राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹15600—39100/— (पे बैंड-3) + ₹ 5400/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं.	पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
1.	2014AB1029	श्री अमन कुमार	ए आर डी ई, पुणे	01.08.2014
2.	2014AB1030	श्री यतिन चौधरी	ए आर डी ई, पुणे	01.08.2014
3.	2014AB1005	श्री अभिषेक श्रीवास्तव	केयर, बैंगलौर	01.08.2014
4.	2014AB1006	श्री अवि सोमानी	केयर, बैंगलौर	01.08.2014
5.	2014AB1015	श्री करि डाली नायडू	केयर, बैंगलौर	01.08.2014
6.	2013AB1041	श्री एस आर जी कृष्णा तेजा	सी एच ई एस एस, हैदराबाद	05.08.2013
7.	2013AB1028	सुश्री अनामिका पटेल	डी एल आर एल, हैदराबाद	05.08.2013
8.	2013AB1029	श्री पंगा राधाकृष्णा	डी एल आर एल, हैदराबाद	05.08.2013
9.	2014AB1051	सुश्री स्वाति	एन एस बी, विशाखापत्तनम	25.06.2014
10.	2012AB1060	श्री सुमंथा पोलीमेरा	एन एस टी एल, विशाखापत्तनम	09.07.2012

राजीव रंजन
संयुक्त-निदेशक कार्मिक
(डी आर डी एस-II)

सेना सचिव शाखा

सं. 209, दिनांक 14 अगस्त 2015—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

वी-00359 ए/ मेजर जनरल ए जे सिंह, वी एस एम, आर वी सी	20.10.14
---	----------

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

आई सी-43730 ए/ ब्रिग विक्रान्त नायर, आर्म्ड	01.04.13 से परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना ज्येष्ठता 12.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-48037 ए/ ब्रिग के वी प्रसाद, इंजीनियर्स	01.11.13 से परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना ज्येष्ठता 21.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44175 ए/ ब्रिग एस एम लिमये, सिक्ख	13.12.13 से परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना ज्येष्ठता 02.07.11 से दी जायेगी।

एस सी खनसीली
निदेशक एम एस (एक्स)

वायु शाखा

सं. 210, दिनांक 17 अगस्त 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं ।

भारतीय वायु सेना

उड़न शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में

क्रम सं.	रैंक	नाम	संख्या	शाखा	दिनांक
1	एयर मार्शल	बी सुरेश एवीएसएम वीएम	16206	उ (पा)	01.11.14
2	एयर मार्शल	जे एस क्लेर वीएम	16225	उ (पा)	02.02.15

ए के सिंह
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 211 दिनांक 18 अगस्त 2015—राष्ट्रपति डीआरडीओ मुख्यालय के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को 01 जुलाई 2015 से डीआरडीओ मुख्यालय में उनके वर्तमान ग्रेड से अगले उच्चतर ग्रेड में उसी स्थापना में प्रत्येक के सामने उल्लिखित अनुसार सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

क्र.सं.	नाम	विद्यमान ग्रेड	जिस ग्रेड में पदोन्नत किया गया	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन (रु. में)	मंजूर की गई परिवर्तनीय वेतन वृद्धियां
1.	श्री आलोक मल्ल	वैज्ञा. 'एफ'	वैज्ञा 'जी'	37400-67000+10000+विशेष वेतन 4000 /- रु.	3
2.	श्री राधेश्याम गोंबा	वैज्ञा. 'एफ'	वैज्ञा 'जी'	37400-67000+10000+विशेष वेतन 4000 /- रु.	3
3.	डॉ. ओम कुमार	वैज्ञा. 'एफ'	वैज्ञा 'जी'	37400-67000+10000+विशेष वेतन 4000 /- रु.	4
4.	श्री जे के गुप्ता	वैज्ञा. 'एफ'	वैज्ञा 'जी'	37400-67000+10000+विशेष वेतन 4000 /- रु.	4
5.	श्री के के पाठक	वैज्ञा. 'एफ'	वैज्ञा 'जी'	37400-67000+10000+विशेष वेतन 4000 /- रु.	3
6.	श्री हेमंत कुमार गुप्ता	वैज्ञा. 'एफ'	वैज्ञा 'जी'	37400-67000+10000+विशेष वेतन 4000 /- रु.	1
7.	श्री भास्कर बर्मन	वैज्ञा. 'एफ'	वैज्ञा 'जी'	37400-67000+10000+विशेष वेतन 4000 /- रु.	4
8.	श्रीमती सेल्लामल्ल सेखर	वैज्ञा. 'एफ'	वैज्ञा 'जी'	37400-67000+10000+विशेष वेतन 4000 /- रु.	4
9.	श्री सुमित गोस्वामी	वैज्ञा. 'ई'	वैज्ञा 'एफ'	37400-67000+8900 /- रु.	5
10.	श्री गुलशन राय पनेसर	वैज्ञा. 'ई'	वैज्ञा 'एफ'	37400-67000+8900 /- रु.	4
11.	श्रीमती रोमी सिन्हा	वैज्ञा. 'ई'	वैज्ञा 'एफ'	37400-67000+8900 /- रु.	5
12.	श्री विपुल गुप्ता	वैज्ञा. 'डी'	वैज्ञा 'ई'	37400-67000+8700 /- रु.	6
13.	श्री कुमरेश कुमार गौड़	वैज्ञा. 'डी'	वैज्ञा 'ई'	37400-67000+8700 /- रु.	6
14.	श्री योगेश शाक्य	वैज्ञा. 'डी'	वैज्ञा 'ई'	37400-67000+8700 /- रु.	4
15.	श्री विवेक शर्मा	वैज्ञा. 'डी'	वैज्ञा 'ई'	37400-67000+8700 /- रु.	5
16.	श्री मनोज पवार	वैज्ञा. 'बी'	वैज्ञा 'सी'	15600-39100+6600 /- रु.	4
17.	सुश्री कोमल शर्मा	वैज्ञा. 'बी'	वैज्ञा 'सी'	15600-39100+6600 /- रु.	4

राजीव रंजन
संयुक्त निदेशक
(कार्मिक-डीआरडीएस-II)

सेना सचिव शाखा

सं. 212, दिनांक 19 अगस्त 2015—रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राजपत्र दिनांक 22 मार्च 2014 में “नियमित सेना, स्थायी कमिशन, ब्रिगेडियर के मूल रैंक में” शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन करता है:—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

शुद्धि पत्र

के लिए

आई सी-40216 ब्रिग जी एस तलवार, आर्टि	22.06.11 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.08.09 से दी जायेगी।
---	---

पढ़ें

आई सी-40216 ब्रिग जी एस तलवार, आर्टि	22.06.10 से परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना ज्येष्ठता 08.08.09 से दी जायेगी।
---	---

एस सी खनसीली
निदेशक एम एस (एक्स)

(सेना शाखा)

सं. 213, दिनांक 20 अगस्त 2015—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थाई आयोग

(लें0 के पद पर दिनांक 09 दिसम्बर 2006 से)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2008 को 119 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	पुष्पिनर सिंह	आई सी-68591एल	आर्टी
पढ़ें	—	पुष्पिन्द्र सिंह	आई सी-68591एल	आर्टी

प्रदीप गोविन्दन
ले0 कर्नल
एमएस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th August 2015

ARMY BRANCH

No. 206, dated 11th August 2015—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts w.e.f. 13 Dec 2014

The undermentioned 381 Cadets of 135 Regular Course (125 DE, 193 Ex NDA and 63 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 13 Dec 2014 except two GCs, GC N/44902 (IC No. 79801A) Rahool Kumar (ser No 224) and GC D/44534 (IC No. 79929L) Sushant Kumar (ser No 352) was withheld as they were LMC at the time of POP. After becoming SIH1A1P1E1, GC N/44902 (IC No. 79801A) Rahool Kumar (ser No 224) and GC D/44534 (IC No. 79929L) Sushant Kumar (ser No 352) have been granted permanent commission w.e.f. 03 Feb 2015 (F/N) and 24 Feb 2015 (F/N) respectively, under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79578	F	PAWAN KUMAR SANGWAN	INF
79579	K	PANKAJ KUMAR	AC
79580	Y	AADITYA ANAND TYAGI	INF
79581	F	BHANU PRATAP SINGH	AC
79582	K	KARAN THUKRAL	EME
79583	M	SHREY MISTRY	INF
79584	P	JAIDEEP CHUGH	INF
79585	X	ANKIT SOOD	SIGS
79586	A	AMAR PRAKASH	ENGRS
79587	H	VISHAVJIT SINGH	INF
79588	L	DILBAG SINGH HANJRA	ARTY
79589	N	LALIT	ENGRS
79590	H	HARIKRISHNAN A	ARTY
79591	L	SACHIN BHARDWAJ	ASC
79592	N	MANOJ KUMAR	ARTY
79593	W	SRIKANT SABAT	ARTY
79594	Y	SIDDHANT SARTHAK	AC
79595	F	ROHIT SINGH PILANIA	INF
79596	K	SURESH KUMAR	INF
79597	M	PARMINDER SINGH VIRK	ARTY
79598	P	SOUMYESH MOHAPATRA	AVN

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79599	X	NAVNEET CHAUHAN	AOC
79600	F	KARTIK SHARMA	MECH
79601	K	ABHAY JOSHI	INF
79602	M	PIYUSH RAJ	AAD
79603	P	SUKHWINDER SINGH	INF
79604	X	ASHISH KUMAR	ASC
79605	A	RISHI AHUJA	AOC
79606	H	RAKESH KUMAR	INF
79607	L	CHANDER SINGH BORA	MECH
79608	N	SURAJ SANJAY ITHAPE	INF
79609	W	RISHI SHARMA	INF
79610	L	AMIT THAKUR	ARTY
79611	N	ASHISH THAKUR	INF
79612	W	SURYA PRAKASH	AC
79613	Y	SIDDHANT SINGH	INF
79614	F	ANANT GOYAL	SIGS
79615	K	ASHISH KUMAR	AC
79616	M	DEVASHISH UPADHYAY	INF
79617	P	KRISHNA SAXENA	INF
79618	X	VIKAS KUMAR RATHORE	INF
79619	A	SUNIL MISHRA	ENGRS
79620	P	PRASHANT NAUHAWAR	ASC
79621	X	RAVINDER KUMAR	AOC
79622	A	NARINDER KUMAR	INF
79623	H	VAISHAK MADHUSOODANAN	ARTY
79624	L	VIKASH KUMAR KAMAL	ARTY
79625	N	AKHILESH CHOUDHURY	EME
79626	W	DHIRAJ SINGH CHAUHAN	ARTY
79627	Y	SANTOSH SINGH MEHRA	INF
79628	F	DAHITULE PRATIK RAMDAS	ARTY

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79629	K	VAIBHAV KUMAR	ENGRS
79630	Y	MOHIT KUMAR NAIN	INF
79631	F	ABHINAV CHATURVEDI	INF
79632	K	RANJAN SINGH BHANUKA	AAD
79633	M	HARENDAR MALIK	AOC
79634	P	AVINASH GIRI	INF
79635	X	SAMEER YADAV	ARTY
79636	A	VICKY CHETTRI	INT
79637	H	AJAY BIJARNIA	SIGS
79638	L	ANAND	ARTY
79639	N	NITIN KESHARWANI	AAD
79640	H	SAGAR BUDHWAR	ASC
79641	L	ANKIT MISHRA	MECH
79642	N	J MORDECAI NGIIMEI	INF
79643	W	HIMANSHU KUKREJA	ENGRS
79644	Y	LAAD PRANAY SANJAY	INF
79646	K	GAURAV MISHRA	INF
79647	M	AMAN GANGWAR	ARTY
79648	P	RAVINDER SINGH	INF
79649	X	VISHAVJIT SINGH	INF
79650	M	BULU MOHARANA	ARTY
79651	P	ASHISH BATRA	ARTY
79652	X	AKSHAY MAHAJAN	ENGRS
79653	A	ADITYA SINGH	ENGRS
79654	H	SUCHIT NAUTIYAL	EME
79655	L	VARUN KUMAR DUBEY	ARTY
79656	N	SNIGDH BHARADWAJ	INF
79657	W	DISHANT BISHT	INF
79658	Y	SURYAKANT MUDGAL	SIGS

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79659	F	PRAKASH BHATT	ASC
79660	W	AASHIRWAD	ARTY
79661	Y	ARVINDER SINGH	INF
79662	F	KUNAL NARULA	AVN
79663	K	SHASHANK	ARTY
79664	M	MANAS VERMA	ARTY
79665	P	VIKRAM BOHRA	ENGRS
79666	X	SIDDHARTH THAKUR	INF
79667	A	PRABHAT MISHRA	INF
79668	H	SHANKARAGOUDA S PATIL	INF
79669	L	SIDDHARTH YADAV	AC
79670	A	ARUN PANDEY	INF
79671	H	KAWARPAL SINGH	ASC
79672	L	GAURAV BAVEJA	AC
79673	N	ASHISH KUMAR	AAD
79674	W	SATISH KUMAR YELLAPU	SIGS
79676	F	MANOJ SINGH	AOC
79677	K	GOVIND SINGH	INF
79678	M	NAVNEET GURUNG	INF
79679	P	RAVI KUMAR	INF
79680	K	AMANDEEP SINGH GAUR	INF
79681	M	ROHIT JOON	EME
79682	P	V S KARTIK CHIRALA	ARTY
79683	X	RAHUL R NAIR	ARTY
79684	A	R LOHEETH	INF
79685	H	AJIT KUMAR	AAD
79686	L	HEMANT KUMAR	SIGS
79687	N	KARTHIKEYAN K S	AC
79688	W	RAKESH KUMAR KONTEY	ARTY
79689	Y	RAMESH KUMAR UPADHYAY	AAD

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79690	N	ABHASH CHAURASIA	INF
79691	W	NALAWADE NITISH CHANDRASHEKHAR	ARTY
79692	Y	SANDEEP DADHEECH	AOC
79693	F	LITHIN K	INF
79694	K	SAHIL BHADRECHA	ENGRS
79695	M	PRASHANT RAPESWAL	ARTY
79696	P	KAMALPREET SINGH	INF
79697	X	SUNNY GUPTA	ENGRS
79698	A	YOGVIR	ASC
79699	H	ANISH BHAIK	INF
79700	M	ABHAY MISHRA	EME
79701	P	SAMDARSH SHARMA	ASC
79702	X	ARIHANT GAHLOT	MECH
79703	A	VASU SANGWAN	INF
79704	H	SIDDHARTH CHAUBEY	ARTY
79705	L	DEEPAK TYAGI	ARTY
79706	N	ASHIK M B	INF
79707	W	ANTARIKSH TYAGI	AC
79708	Y	DINESH CHANDRA	INF
79709	F	BHARAT CHAVALI	ENGRS
79710	W	S SHYAM	ARTY
79711	Y	NEIL SILAS LOBO	AC
79712	F	SATISH KUMAR	INF
79713	K	RAGHU SHARMA	AC
79714	M	HIMMAT SINGH	AOC
79715	P	KAVINDRA SINGH MAHAR	INF
79716	X	SIDDHARTHA	AC
79717	A	DEEPAK DABAS	AOC
79718	H	RISHABH MEHRA	INF
79719	L	VIKASH	MECH

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79720	A	JATIN PARIHAR	INF
79721	H	NITIN RAWAT	INF
79722	L	PARAS ADLAKHA	ARTY
79723	N	GURPAL SINGH	INF
79724	W	SANJAY SINGH THAPA	ASC
79725	Y	PRANAV SHARMA	ARTY
79726	F	MANOJ KUMAR BASERA	INF
79727	K	RAJEEV KAUSHAL	EME
79728	M	ANOOB RAVINDRA SHETTY	INF
79729	P	ROHIT VERMA	INF
79730	K	S HEMANTH KUMAR	ENGRS
79731	M	PAWAN KUMAR TIWARI	ENGRS
79732	P	RAVISHANKAR RAJARAM KADAM	ARTY
79733	X	RITESH KUMAR YADAV	ASC
79734	A	ANSHUMAN	ARTY
79735	H	ROCKY KHARB	AAD
79736	L	SAGAR PANCHAL	ARTY
79737	N	AKASH SINGH TOMAR	INF
79738	W	CHANDRA BHUSHAN MISHRA	SIGS
79740	N	BHARAT YADAV	INF
79741	W	AMIT KUMAR DHETERWAL	AC
79744	K	NEERAJ PANDEY	ARTY
79745	M	AASHISH KUMAR	INT
79746	P	NABIN GURUNG	ASC
79747	X	AMAN KANWAR	ENGRS
79748	A	MUKUL SAINI	ARTY
79749	H	SAKSHAM DATIYAL	INF
79750	X	HARSH SHARMA	INF
79751	A	AMIT YADAV	ARTY
79752	H	DAVINDER SINGH	INF

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79753	L	SAURABH SINGH CHAUHAN	INF
79754	N	PRATEEK SHUKLA	ENGRS
79755	W	RAHUL YADAV	INF
79756	Y	SACHIN PRAKASH	AOC
79757	F	BIKASH KUMAR SWAIN	AAD
79758	K	TANUJ GAUR	ARTY
79759	M	MAYUR HARIDAS NAWGHARE	ARTY
79760	F	MOHIT MAHNA	SIGS
79761	K	ABHISHEK SINGH	INF
79762	M	VAIBHAV RAWAT	INF
79763	P	PRAVEEN SINGH	INF
79764	X	RAHUL TOKAS	ENGRS
79765	A	ANKUR SINGH	INF
79766	H	RAJNISH PANDEY	AC
79767	L	BHUVANESH KUMAR	INF
79768	N	ABHISHEK CHATURVEDI	MECH
79769	W	PRATIK BEEDKAR	SIGS
79773	Y	VIKRAM SINGH	AOC
79774	F	D SEHGAL	ARTY
79776	M	KULVINDER SINGH	ARTY
79777	P	INDER SINGH BUNGLA	INF
79778	X	TEJASVI GODARA	AC
79779	A	BHARAT YADAV	INF
79780	P	AMAN DIXIT	ASC
79781	X	NITIN NYOPANE	MECH
79783	H	RAJAN KUMAR SINGH	AOC
79784	L	SOORAJ S KUMAR	INF
79785	N	KARAN	SIGS
79786	W	SHOUVIK SHUBHRA DUTTA	ARTY
79787	Y	BILAL AHMD SHAH	ASC

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79788	F	AKSHAY KUMAR	EME
79789	K	MORE PRASHANT PANDURANG	ENGRS
79792	K	AMAN JAIN	MECH
79793	M	GAGANDEEP JOSHI	INF
79794	P	SAURAV KUMAR	ARTY
79795	X	MD MOIN UDDIN	ENGRS
79796	A	DHANANJAY KUMAR SINGH	ARTY
79797	H	PRASHANT PARASHURAM GURAV	INF
79798	L	ATTI NARESH KUMAR	AAD
79800	X	SHASHANK JAISWAL	INF
79801	A	RAHOOL KUMAR	ENGRS
79803	L	MRIDUL SANWAL	AC
79804	N	MUNISH SHARMA	INF
79805	W	RAHUL ROKA	INF
79806	Y	VIRENDRA SINGH SHEKHAWAT	ARTY
79807	F	SAHIL MAHAJAN	ARTY
79808	K	KAMRAN NIJJAR	ARTY
79809	M	BHUWAN BHARDWAJ	AC
79810	F	ABHINAV DUBEY	ENGRS
79811	K	SARANSH AGNIHOTRI	INF
79812	M	JAGTAP SAMIR SAMBHAJI	INF
79813	P	DIVYA PRAKASH	ARTY
79814	X	PARAMVIR SINGH RANDHAWA	INF
79815	A	ASHOK	ASC
79816	H	ANMOL CHOPRA	INF
79817	L	SETU UPADHYAY	INF
79818	N	SHASHANK SRIVASTAVA	INF
79819	W	ROMIL ANNA	ARTY
79820	L	SUNIL KUMAR GAJRAJ	AOC
79821	N	ARVINDER SINGH PURI	SIGS

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79822	W	ROHIT KAPOOR	AAD
79823	Y	ABHISHEK SHARMA	ARTY
79824	F	VISHAL JHA	INF
79825	K	KAVINILAVAN R C	SIGS
79826	M	SHIVENDU	INF
79827	P	K SREERAM RENJITH	INF
79828	X	PUNEET	EME
79829	A	ABHISHEK THAKUR	INF
79830	P	AKULA MANJUNATH	ENGRS
79831	X	PIYUSH PANWAR	ASC
79832	A	KOCHE VIVEK MADHUKAR	INF
79833	H	NIMBORE SACHIN NANDKUMAR	ARTY
79834	L	PRIYESH MC	INT
79835	N	PARTHA ROY	MECH
79836	W	ARUN KUMAR	INF
79837	Y	ABHISHEK	ENGRS
79838	F	ARJUN KUMAR	AOC
79839	K	DEEPAK KUMAR PANDEY	INF
79841	F	RANJIT SINGH	INF
79842	K	HARSHIT MITTAL	MECH
79843	M	ABHAYJEET SINGH	AAD
79844	P	MAHAJAN ABHIJIT DILIPKUMAR	AC
79847	H	W NINGSON KOIRENG	INF
79850	H	RAJESH JEERU	ARTY
79852	N	ADEEB SINDHI	ARTY
79853	W	SHIVAM	AAD
79854	Y	ANKIT KUMAR TYAGI	ARTY
79855	F	AMIT NAIN	INF
79856	K	AMAN GUPTA	ARTY
79857	M	ANURAG JASWAL	ENGRS

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79858	P	ANURAG KUMAR	ASC
79859	X	SAURABH KUMAR	INF
79860	M	SANDEEP KUMAR	AC
79861	P	SANDEEP KUMAR	INF
79862	X	ASHOK SHANKAR GOGOI	INF
79863	A	VISHAL SINGH	INF
79864	H	SHIVAM DUBEY	ENGRS
79865	L	SUDHIR MALIK	AOC
79866	N	ISHNAZ SINGH	INF
79867	W	SHASHANK DALAL	AC
79869	F	AJAY KUMAR	SIGS
79870	W	ABHINAV GUPTA	INT
79871	Y	SHAGUN	INF
79872	F	PIYUSH KUMAR TIWARI	INF
79873	K	APURAV MAHANT	INF
79874	M	GAGANJIT SINGH DUGGAL	ASC
79875	P	RAMESH SHAH	ASC
79876	X	CHARANJIT SINGH	INF
79877	A	NITIN BELWAL	INF
79878	H	TAPESH YADAV	INF
79880	A	PARAS KOCHHAR	ENGRS
79881	H	SUPREET SINGH KAHLOON	AC
79882	L	HAOBAM RAHUL SINGH	INF
79884	W	AVINASH BABAN KHATODE	ARTY
79885	Y	SARVODAYA TAK	INF
79886	F	VIVEK SINGH JASYAL	AC
79887	K	VIVEK SHARMA	ENGRS
79888	M	VINOD SHARMA	ARTY
79889	P	NIKAM RAKESH ASHOK	ARTY
79890	K	TARUN KUMAR	INF

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79891	M	SUNIL KUMAR	ARTY
79892	P	SURYALOK DATTA	INF
79893	X	RAJAN JHA	INF
79894	A	ANKUR LOHCHAB	SIGS
79895	H	VIVEK KUMAR CHAUHAN	INF
79897	N	RAJEEV KUMAR RAO	ARTY
79898	W	SATYABRATA CHOUBEY	ARTY
79899	Y	T J PRAJIN	EME
79900	H	TARUN RANA	AAD
79902	N	RAHUL SURESH NAIR	AOC
79903	W	DEEPAKKUMAR C	ASC
79905	F	ADITYA VIJAY	ENGRS
79907	M	SHIVAM BHARTI	AC
79908	P	KAMENDRA SINGH	ASC
79909	X	AMBESH CHARAN	MECH
79910	M	MANBIR SINGH	INF
79911	P	ASHUTOSH SRIVASTAVA	INF
79912	X	HIMANSHU PANDEY	INF
79913	A	ABHISHEK SHARMA	SIGS
79914	H	SATHYANARAYANA N	ARTY
79915	L	DEEPANKAR TYAGI	ENGRS
79916	N	MOHIT KUMAR	AOC
79917	W	MANAN DEVENDRA PANDYA	AVN
79918	Y	VIKRANT	INF
79919	F	RAJESH KUMAR MUKHERJEE	SIGS
79920	W	N SHRIRAM	INF
79922	F	SHINDE VISHWAJEET VIJAY	ARTY
79923	K	AMAN VIRK	AC
79924	M	AKASH KUMAR SINGH	AAD
79925	P	ANKIT KALIA	INF

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79926	X	AMIT KUMAR PANDEY	ARTY
79927	A	RAKESH KUMAR	ARTY
79929	L	SUSHANT KUMAR	ARTY
79930	A	DEBASHISH PUSTI	AC
79931	H	SHETTY SAGAR DIWAKAR	INF
79932	L	JADHAV PRATIK BALIRAM	ARTY
79933	N	MOHIT JAIN	INF
79935	Y	NALLURI ADITYA	ENGRS
79937	K	SIDDHARTH SINGH	SIGS
79938	M	TAHIRULLA BAIG	INF
79939	P	NISHANT AWASTHI	INF
79940	K	SUNIL SHARMA	AOC
79941	M	SIDDHARTH MATHUR	ARTY
79942	P	ANSHUL GOYAL	INF
79943	X	INDRANEIL CHAUDHURI	INF
79944	A	RISHABH PAWARIA	ASC
79945	H	BHAVYA SHARMA	SIGS
79946	L	KARANDIKAR AJINKYA ANIL	INF
79947	N	GARIGIPATI SAI SARATH	ARTY
79948	W	SHIVANAND G P	ENGRS
79950	N	RAHUL	ASC
79951	W	SYED ABUL	ARTY
79952	Y	KAUSHAL SHARMA	ENGRS
79953	F	BAAZ DHILLON	AC
79954	K	RAJBIR SHEORAN	INT
79955	M	ASHUTOSH SHARMA	INF
79956	P	SHASHANK DUBEY	EME
79957	X	SANKAR RAO R	INF
79958	A	SIDHARTH SINGH	AC
79960	X	ANISH KUMAR ROUT	AAD

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79961	A	PRADEEP SAGGAR	ARTY
79962	H	ABHISHEK KUMAR SINGH	INF
79964	N	SHUBH SALUJA	INF
79965	W	MANINDER SINGH	ENGRS
79966	Y	VARUN BISHT	INF
79969	M	NITISH KUMAR	AVN
79970	F	ROHIT SHARMA	ENGRS
79971	K	KUMAR DIVYE AGNIHOTRI	INF
79972	M	VIKRAM BALRAJ SINGH	AC
79973	P	ARUN KADYAN	AOC
79974	X	KUNAL PILLEY	SIGS
79975	A	JAIVRAT SINGH RAGHAV	MECH
79976	H	ABHISHEK SHEKHAWAT	AC
79977	L	SUYASH BALANI	INF
79978	N	KAVI PRATEEK NARAIN	INF
79982	W	VIKAS SINGH RANA	ARTY
79984	F	AKSHAY PANDEY	ASC
79985	K	ADITYA UNIYAL	ENGRS
79986	M	PARAMBEER SINGH	INF
79987	P	ARCHIT SHARMA	MECH
79988	X	SUMIT SAKLANI	ARTY
79989	A	VIBHAS DUBEY	ASC
79990	P	N S SHANMUGAM	EME
79991	X	JONATHAN DESMOND DEVINE JONES	INF
79993	H	KUMAR GAURAV	ARTY
79995	N	MAGESH PRASANNA S	INF
79996	W	NIHAL NIHALANI	ARTY
79997	Y	KARAN LUTHRA	INF

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
79998	F	ASHISH MISHRA	AC
79999	K	NITESH GAIROLA	AOC
80000	L	RAHUL SINGH	INF

The undermentioned Three Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

PAWANDEEP SINGH (IC-79739Y) INT seniority next below CHANDRA BHUSHAN MISHRA (IC-79738W) SIGS COMMA CHETAN YADAV (IC-79742Y) SIGS seniority next below AMIT KUMAR DHETERWAL (IC-79741W) AC COMMA KUMAR VIVEK (IC-79928H) ARTY seniority next below RAKESH KUMAR (IC-79927A) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned Two Gentleman Cadet of 133 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Dec 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SUMEET KARNATAK (IC-78574Y) AAD seniority next below SAHIL KATOCH (IC-78573W) INF COMMA PATHAK VEDANG KISHOR (IC-78670N) INF seniority next below KRITPAL SINGH (IC-78669Y) INF whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned Nine Gentleman Cadet of 133 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Dec 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

YOGESH SINGH MAHAR (IC-78482M) MECH seniority next below ATUL VERMA (IC-78481K) ASC COMMA DINESH SINGH BISHT (IC-78524N) ARTY seniority next below MANISH SHARMA (IC-78523L) ASC COMMA VISAG C P (IC-78718W) ENGRS seniority next below SAMEER M CHAVAN (IC-78717N) ARTY COMMA RAJESHWAR SINGH (IC-78690F) INF seniority next below ANSHUMAN JOSHI (IC-78689M) ARTY COMMA VIVEK GIRI (IC-78617H) ASC seniority next below LAKHVIR SINGH (IC-78616A) INF COMMA GAUTAM C A (IC-78519H) AOC seniority next below JAI PAL SINGH (IC-78518A) INF COMMA DEEPAK KUMAR (IC-78562K) AAD seniority next below PRASHANT RANA (IC-78561F) AOC COMMA ALOK MISHRA (IC-78424H) ARTY seniority next below SWARNJIT SINGH (IC-78423A) INF COMMA AKSHAY DADHWAL (IC-78472H) SIGS seniority next below VARUN G (IC-78471A) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned 07 (Seven) Gentleman Cadets (GCs) of 21 UES course whose GC number is prefixed by 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt w.e.f 08 Jun 2013 (F/N) and are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions w.e.f 10 Jun 2012 under the terms and conditions of AI 2/93, as amended for the GCs of University Entry Scheme Course.

U/1245 GADILA SIDDHARTH REDDY (IC 78126M), SIGS with the seniority below U/1194 APURV GUPTA (IC 78125K), ARTY, U/1206 NILAY KUMAR (IC 78161P), AC with the seniority below T/7279 AMIT DALAL (IC 78160M), SIGS, U/1228 RAHUL SHARMA (IC 78214H), SIGS with the seniority below T/7284 ANANT MAHESHWARI (IC 78213A), ARTY, U/1175 RAHUL DHARMAWAT (IC 78237K), INT with the seniority below T/7258 VISHAL VENUGOPAL (IC 78236F), INF, U/1235 NITIN BISHT (IC 78270F), ENGRS with the seniority below U/1178 ASHISH AHLUWALIA (IC 78269M), EME, U/1196 GOVIND GHINTALA (IC 78271K), EME with the seniority below U/1178 ASHISH AHLUWALIA (IC 78269M), EME and above T/7329 Himanshu Choubey (IC 78272M) EME, U/1236 S GUHAN (IC 78319M), SIGS with the seniority below T/7340 JANARDHAN G V V (IC 78318K), ASC whose name has been published in Gazette of India, Part-I Section -IV on 29 Nov 2014.

The undermentioned 33 (thirty three) Gentleman Cadets (GCs) of 116 Technical Graduates Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) are granted permanent commission in the rank of Lt w.e.f 14 Dec 2013 (F/N) and are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions w.e.f 14 Dec 2012 under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended.

T/7440 RATAN SINGH (IC 78830H), SIGS with the seniority above T/7361 HARDEEP SINGH (IC 78832N), INF, T/7400 DINESH CHAND (IC 78831L), ARTY with the seniority above T/7361 HARDEEP SINGH (IC 78832N), INF, T/7404 VISHAL SHARMA (IC 78839X) INF with the seniority below T/7375 ANUJ KUMAR (IC 78838P), EME, T/7387 SURAJ MISHRA (IC 78840M), EME with the seniority below T/7375 ANUJ KUMAR (IC 78838P), EME, T/7368 ANKUR KUMAR PAL (IC 78841P), INF with the seniority below T/7375 ANUJ KUMAR (IC 78838P), EME, T/7419 ALOK PRATAP SINGH (IC 78842X), AAD with the seniority below T/7375 ANUJ KUMAR (IC 78838P) and above T/7371 JOTPAL SINGH CHEEMA (IC 78843A) AC, T/7407 GAURAV RAGHUVANSHI (IC78847W), SIGS with the seniority below T/7356 HARMEET SINGH RANDHAWA (IC 78846N), ENGRS, T/7385 TARU AGARWAL (IC 78861H), INF with the seniority below T/7366 ASHISH HOODA (IC 78860A) MECH, T/7348 TEZENDER MALIK (IC 78862L), EME with the seniority below T/7366 ASHISH HOODA (IC 78860A) MECH, T/7448 RAHUL DHIMAN (IC 78863N), EME with the seniority below T/7366 ASHISH HOODA (IC 78860A) MECH and above T/7403 DEEPAK YADAV (IC 78864W) ARTY T/7449 KANOJIYA BHARAT KALLULAL (IC 78865Y), INF with the seniority below T/7403 DEEPAK YADAV (IC 78864W), ARTY, T/7401 RAHUL SHARMA (IC 78872P), ARTY with the seniority below T/7350 NIPUN KUMAR (IC 78871M), ENGRS, T/7370 HAVINDER KUMAR (IC 78879Y), EME with the seniority below T/7378 MAYANK ASHOK (IC 78877N), EME, T/7367 NIRAJ KUMAR (IC 78882Y), INF with the seniority below T/7347 RAHUL KUMAR PANDEY (IC 78881W), INT, T/7436 JOSHI MANGESH SHARAD (IC 78883F), EME with the seniority below T/7347 RAHUL KUMAR PANDEY (IC 78881W), INT and above T/7384 CHAITENYA DALAL (IC 78884K) AOC, T/7379 SANDEEP MEHTA (IC 78885M), INF with the seniority below T/7384 CHAITENYA (IC 78884K), AOC. T/7422 VINEET BINDAL (IC 78888A), AOC with the seniority below T/7397 ROBIN TYAGI (IC 78887X), AOC, T/7409 VIKRAM SINGH (IC 78890X), ENGRS with the seniority below T/7382 BABER LIYAQAT (IC 78889H), SIGS, T/7424 JAGATI RUDRA BHUWAN (IC 78892H) ARTY with the seniority below T/7358 KARAN SHARMA (IC 78891A), AC, T/7445 ANIL KUMAR SHARMA (IC 78894N) ASC with the seniority below T/7358 KARAN SHARMA (IC 78891A), AC, T/7360 KAMAL SWAIN (IC 78895W), ENGRS with the seniority below T/7358 KARAN SHARMA (IC 78891A), AC, T/7421 BHUPINDER SAINI (IC 78896Y), EME with the seniority below T/7358 KARAN SHARMA (IC 78891A), AC, T/7444 AVTAR SINGH NARWAL (IC 78897F), AVN with the seniority below T/7358 KARAN SHARMA (IC 78891A), AC, T/7412 S NARESH (IC 78901Y), EME with the seniority below T/7358 KARAN SHARMA (IC 78891A), AC and above T/7357 ISHAN VASHISHT (IC78902F) ENGRS, T/7355 PARTH PRABAL (IC 78907A), ENGRS with the seniority below T/7388 NIKHIL MADHAV SAWANT (IC 78905P) ENGRS and above T/7365 CHANDAN SINGH MEHTA (IC 78908H), INF, T/7374 VIVEK ANAND GUPTA (IC 78910A), INF with the seniority below T/7414 PRATEEK SHRIVASTAVA (IC 78909L), EME, T/7349 ANURAG KUMAR (IC 78913N), ENGRS with the seniority below T/7453 EZHILAN T (IC 78912L) INF, T/7443 NIMIT NIROULA (IC 78919P), AAD with the seniority below T/7423 PRATIK SINGH RAO (IC 78918M), SIGS, T/7418 RISHI RAJ MALIK (IC 78921M), INF with the seniority below T/7332 GURUCHARAN RV (IC78920K) ENGRS, T/7389 NARENDAR K (IC 78925H), INF with the seniority below T/7392 PRABHDEEP SINGH (IC 78924A), ENGRS, T/7442 RAVDEEP SINGH (IC 78930N), ARTY with the seniority below T/7394 LAKSHAY SACHDEVA (IC 78928W), MECH and above T/7454 KR ANURAJ (IC78931W), SIGS, T/7396 ASHWIN TYAGI (IC 78933F), EME with the seniority below T/7413 MAHIDHAR SINGH (IC 78932Y), EME, T/7432 SANJEEV TIWARI (IC 78935M), ASC with the seniority below U/1231 SANCHIT KIRPAL SINGH (IC 78934K), SIGS, whose name has been published in Gazette of India, Part-I Section -IV on 29 Nov 2014.

The undermentioned 40 (forty) Gentleman Cadets of 118 Technical Graduates Course (TGC) and 22A University Entry Scheme (UES) Course, whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 13 Dec 2014(F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES). They are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 15 Dec 2013 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GC of UES Course :-

IMA No	NAME	IC No		ARM/ SERVICE
T/7623	ABHISHEK KATOCH	80118	M	EME
T/7589	ABHISHEK KAUSHIK	80119	P	ENGRS
T/7613	GULSHAN RAI	80120	K	SIGS
T/7602	YATIN KATARIA	80122	P	SIGS

IMA No	NAME	IC No		ARM/ SERVICE
T/7588	VIKAS YADAV	80123	X	AVN
T/7596	SUMEET SODHI	80124	A	MECH
T/7605	AJINKYA ARVIND POWAR	80126	L	SIGS
T/7601	AANAND SREEKUMAR C	80127	N	ENGRS
T/7587	PRINCE JOSEPH	80129	Y	SIGS
T/7583	SUDHANSHU TYAGI	80130	N	AAD
T/7577	ASHOK KUMAR	80131	W	ENGRS
T/7606	ABHISHEK THAKUR	80132	Y	EME
T/7590	RAJPAL SINGH DHILLON	80134	K	INF
T/7600	SUDHANSHU MISHRA	80135	M	ENGRS
T/7614	ABHISHEK MISHRA	80137	X	SIGS
T/7631	KUNAL KAPOOR	80139	H	ENGRS
T/7604	BHAARGAV P BAILE	80144	N	AAD
T/7591	AJESH PANKAJAKSHAN	80146	Y	ENGRS
T/7625	SAMPRATI JAIN	80147	F	SIGS
T/7581	GAURAV AGARWAL	80148	K	SIGS
T/7610	PUSHPENDRA SINGH RATHORE	80149	M	AOC
T/7597	NIKHIL DEY	80150	F	SIGS
T/7628	RAMAN KUMAR	80152	M	SIGS
T/7582	SOURAV PYKE	80153	P	EME
T/7615	JITIN BATRA	80154	X	ASC
T/7612	SANDEEP KUMAR YADAV	80155	A	SIGS
U/1323	ABHISHEK CHATURVEDI	80156	H	EME
T/7599	DEEPAK	80158	N	SIGS
T/7592	MANU PILLAI A	80159	W	ENGRS
T/7576	LAKSHAY SAINI	80160	L	ENGRS
T/7618	RAHUL MALIK	80162	W	ENGRS
T/7575	KRISHAN KUMAR BENIWAL	80163	Y	ENGRS
T/7621	R KISHAN	80165	K	AVN
T/7620	SHASHI KANT DWIVEDI	80166	M	ARTY
T/7579	SUTANU BANERJEE	80167	P	SIGS
T/7524	S GIRIDHAR	80168	X	ENGRS

IMA No	NAME	IC No		ARM/ SERVICE
T/7627	MD NURUZZAMAN	80172	A	ENGRS
T/7578	NEERAJ SINGH	80173	H	ENGRS
T/7525	P DIPIN NAIR	80174	L	EME
T/7513	ANBARASU S	80178	F	SIGS

The following 01 (one) officer is also granted permanent commission in the rank of Lt wef 13 Dec 2014(F/N) under the terms and conditions of AI 105/61:-

T/7574	GOKUL S G	80176	W	AEC
--------	-----------	-------	---	-----

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned 07 (seven) GCs of 21 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of AI 2/93, as amended for the GCs of UES Course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/ Service	Date of SSC (On Probation)
21 University Entry Scheme Course				
U/1175	RAHUL DHARMAWAT	46572A	SIGS	01 JUL 11
U/1196	GOVIND GHINTALA	46593W	EME	01 JUL 11
U/1206	NILAY KUMAR	46603P	EME	01 JUL 11
U/1228	RAHUL SHARMA	46625N	SIGS	01 JUL 11
U/1235	NITIN BISHT	46632K	EME	01 JUL 11
U/1236	S GUHAN	46633M	SIGS	01 JUL 11
U/1245	GADILA SIDDHARTH REDDY	46642N	SIGS	01 JUL 11

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The undermentioned 33 (thirty-three) GCs of 116 Technical Graduate Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GCs of TG Course:-

IMA No	Name	SS No		Arm/ Service	Date of SSC on Probation
T/7348	TEZENDER MALIK	46994	L	SIGS	08 JAN 13
T/7349	ANURAG KUMAR	46995	N	EME	08 JAN 13
T/7355	PARTH PRABAL	47001	N	EME	08 JAN 13
T/7360	KAMAL SWAIN	47006	M	ENGRS	08 JAN 13
T/7367	NIRAJ KUMAR	47013	H	SIGS	08 JAN 13

IMA No	Name	SS No		Arm/ Service	Date of SSC on Probation
T/7368	ANKUR KUMAR PAL	47014	L	EME	08 JAN 13
T/7370	HAVINDER KUMAR	47016	W	EME	08 JAN 13
T/7374	VIVEK ANAND GUPTA	47020	Y	SIGS	08 JAN 13
T/7379	SANDEEP MEHTA	47025	X	EME	08 JAN 13
T/7385	TARU AGARWAL	47031	L	EME	08 JAN 13
T/7387	SURAJ MISHRA	47033	W	EME	08 JAN 13
T/7389	NARENDAR K	47035	F	SIGS	08 JAN 13
T/7396	ASHWIN TYAGI	47041	P	SIGS	08 JAN 13
T/7400	DINESH CHAND	47045	L	EME	08 JAN 13
T/7401	RAHUL SHARMA	47046	N	ENGRS	08 JAN 13
T/7404	VISHAL SHARMA	47049	F	SIGS	08 JAN 13
T/7407	GAURAV RAGHUVANSHI	47052	F	EME	08 JAN 13
T/7409	VIKRAM SINGH	47054	M	EME	08 JAN 13
T/7443	NIMIT NIROULA	47055	P	EME	08 JAN 13
T/7412	S NARESH	47058	H	EME	08 JAN 13
T/7418	RISHI RAJ MALIK	47064	W	SIGS	08 JAN 13
T/7419	ALOK PRATAP SINGH	47065	Y	EME	08 JAN 13
T/7421	BHUPINDER SAINI	47067	K	ENGRS	08 JAN 13
T/7422	VINEET BINDAL	47068	M	ENGRS	08 JAN 13
T/7424	JAGATI RUDRA BHUWAN	47070	K	SIGS	08 JAN 13
T/7432	SANJEEV TIWARI	47078	W	EME	14 JAN 13
T/7436	JOSHI MANGESH SHARAD	47082	Y	EME	18 JAN 13
T/7440	RATAN SINGH	47086	P	SIGS	22 JAN 13
T/7442	RAVDEEP SINGH	47088	A	SIGS	22 JAN 13
T/7444	AVTAR SINGH NARWAL	47089	H	SIGS	17 JAN 13
T/7445	ANIL KUMAR SHARMA	47090	X	SIGS	21 JAN 13
T/7448	RAHUL DHIMAN	47093	L	SIGS	17 JAN 13
T/7449	KANOJIYA BHARAT KALLULAL	47094	N	SIGS	17 JAN 13

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The under mentioned 36 (thirtysix) GCs of 118 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course.

118 TECHNICAL GRADUATES COURSE					
T/7575	KRISHAN KUMAR BENIWAL	47772	H	EME	14-Jan-14
T/7576	LAKSHAY SAINI	47773	L	EME	14-Jan-14
T/7577	ASHOK KUMAR	47774	N	ENGRS	14-Jan-14

T/7578	NEERAJ SINGH	47775	W	EME	14-Jan-14
T/7579	SUTANU BANERJEE	47776	Y	EME	14-Jan-14
T/7581	GAURAV AGARWAL	47778	K	SIGS	14-Jan-14
T/7582	SOURAV PYKE	47779	M	ENGRS	14-Jan-14
T/7583	SUDHANSHU TYAGI	47780	F	EME	14-Jan-14
T/7587	PRINCE JOSEPH	47784	X	SIGS	14-Jan-14
T/7588	VIKAS YADAV	47785	A	SIGS	14-Jan-14
T/7589	ABHISHEK KAUSHIK	47786	H	EME	14-Jan-14
T/7590	RAJPAL SINGH DHILLON	47787	L	SIGS	14-Jan-14
T/7591	AJESH PANKAJAKSHAN	47788	N	EME	14-Jan-14
T/7592	MANU PILLAI A	47789	W	EME	14-Jan-14
T/7596	SUMEET SODHI	47793	Y	EME	14-Jan-14
T/7597	NIKHIL DEY	47794	F	SIGS	14-Jan-14
T/7599	DEEPAK	47795	K	SIGS	14-Jan-14
T/7600	SUDHANSHU MISHRA	47796	M	EME	14-Jan-14
T/7601	AANAND SREEKUMAR C	47797	P	EME	14-Jan-14
T/7602	YATIN KATARIA	47798	X	SIGS	14-Jan-14
T/7604	BHAARGAV P BAILE	47800	K	EME	14-Jan-14
T/7605	AJINKYA ARVIND POWAR	47801	M	EME	14-Jan-14
T/7606	ABHISHEK THAKUR	47802	P	ENGRS	14-Jan-14
T/7610	PUSHPENDRA SINGH RATHORE	47805	H	EME	14-Jan-14
T/7612	SANDEEP KUMAR YADAV	47807	N	SIGS	14-Jan-14
T/7613	GULSHAN RAI	47808	W	SIGS	14-Jan-14
T/7614	ABHISHEK MISHRA	47809	Y	SIGS	14-Jan-14
T/7615	JITIN BATRA	47810	N	EME	14-Jan-14
T/7618	RAHUL MALIK	47813	F	ENGRS	14-Jan-14
T/7620	SHASHI KANT DWIVEDI	47815	M	SIGS	14-Jan-14
T/7621	R KISHAN	47816	P	SIGS	14-Jan-14
T/7623	ABHISHEK KATOCH	47818	A	SIGS	14-Jan-14
T/7625	SAMPRATI JAIN	47820	X	EME	16-Jan-14

T/7627	MD NURUZZAMAN	47822	H	ENGRS	26-Jan-14
T/7628	RAMAN KUMAR	47823	L	SIGS	26-Jan-14
T/7631	KUNAL KAPOOR	47826	Y	EME	16-Feb-14

The Arms/Services allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The undermentioned 04 (four) GCs of 117 Technical Graduate & 22 University Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for the GC of UES Course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/ Service	Date of SSC (on Probation)
117 Technical Graduate Course				
T/7513	ANBARASU S	47418N	SIGS	15 JUL 13
T/7524	S GIRIDHAR	47429A	ENGRS	15 JUL 13
T/7525	P DIPIN NAIR	47430P	EME	15 JUL 13
22 University Entry Scheme Course				
U/1323	ABHISHEK CHATRUVEDI	47539P	EME	01 JUL 12

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

REGULAR ARMY
SPECIAL COMMISSION

The under mentioned 23 (Twenty Three) Gentlemen Cadets of SCO-33 Course are granted Special Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 13 Dec 14 under the provision of AI 5/97.

OTA No	Army No		Parent Arm/ Service	Name	SC No		Arm/ Service Allotted
S/1045	4088257	K	INF	DHIRAJ SINGH BISHT	00868	A	AOC
S/1042	14936728	L	INF	MAHENDER PAL	00869	H	INF
S/1059	5350670	L	INF	SANTOSH GURUNG	00870	X	INF
S/1051	15789394	P	AAD	VIPIN SINGH	00871	A	EME
S/1060	15788776	M	AAD	NEERAJ UPADHYAY	00872	H	ENGRS
S/1061	9106704	H	INF	RAM KRISHAN	00873	L	INF
S/1053	15770963	H	AAD	PAWAN KUMAR UPADHYAY	00874	N	AAD
S/1058	4005594	H	INF	NANDAN SINGH	00875	W	ASC
S/1044	14665725	F	EME	GAURAVA KUMAR	00876	Y	ARTY

OTA No	Army No		Parent Arm/Service	Name	SC No		Arm/Service Allotted
S/1064	13626092	M	INF	MAHADIK DIPESH NANDKISHOR	00877	F	INF
S/1040	4372246	M	INF	SANGEET THAPA	00878	K	ASC
S/1054	15688081	P	SIGS	RAHUL R S	00879	M	SIGS
S/1057	15337345	K	ENGRS	KRISHNA KUMAR THAPA	00880	F	INF
S/1048	4199639	H	INF	NIKLESH KUMAR LOHANI	00881	K	MECH INF
S/1046	15675490	K	SIGS	ALURU RAMACHANDRA PRASAD	00882	M	SIGS
S/1047	14678200	W	EME	PATIL NIMBA BHILA	00883	P	ARTY
S/1062	15695377	W	SIGS	JITHIN M	00884	X	INF
S/1063	15786382	P	AAD	MOHD RAFI KHAN	00885	A	ARTY
S/1056	9513002	A	AEC	KULWANT DABAS	00886	H	EME
S/1050	15147762	A	ARTY	JITENDRA SINGH RATHORE	00888	N	AC
S/1043	15670497	K	SIGS	PARMINDER SINGH	00889	W	ENGRS
S/1052	3198528	H	INF	DALWINDER SINGH	00890	L	INF

PRADEEP GOVINDAN
Lt Col
AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 207, dated 12th August 2015—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned 116 (One Hundred Sixteen) Gentlemen Cadets of 10+2 TES-24 Course are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 13 Dec 2014 under the provision of AI 3/99.

IC No		Name	Arms/Services
80001	N	PRASANJIT DUTTA	ARTY
80002	W	AADIL MAQBOOL KHAN	EME
80003	Y	VIVEK SINGH	EME
80004	F	VIVEK VERMA	ENGRS
80005	K	AJAY BISHT	INF
80006	M	KRISHNA PRASATH S	ENGRS

IC No		Name	Arms/ Services
80007	P	SONAL CHAUHAN	INF
80008	X	HARSH DEEP SINGH	INF
80009	A	PALABOINA HEMANT RAO	SIGS
80010	P	VIJAY BISHT	ENGRS
80011	X	VIKAS	EME
80012	A	TARUN KUMAR	SIGS
80013	H	N ARJUN SUDHAKAR	ENGRS
80014	L	SANJAY SINGH CHAUHAN	AC
80015	N	DINESH MISHRA	SIGS
80016	W	NAVNEET SINGH	ENGRS
80017	Y	TANMAY RAKHE	SIGS
80018	F	YOGESH PANDEY	ENGRS
80019	K	SANKALP SHARMA	EME
80020	Y	NISHANK MISHRA	EME
80021	F	SANCHIT SRIVASTAVA	SIGS
80022	K	KULDEEP TIWARI	EME
80023	M	ANUJ YADAV	EME
80024	P	PANKAJ SHARMA	INF
80025	X	APURV SHARMA	SIGS
80026	A	GAURAV DALAKOTI	SIGS
80027	H	AKSHAY PURUSHU	INF
80028	L	SAURABH KUMAR JOSHI	ENGRS
80029	N	ASHISH SINGH	ENGRS
80030	H	ANKIT KUMAR	SIGS
80031	L	ABHIMANYU GANACHARI	ENGRS
80032	N	AMIT KUMAR	MECH INF
80033	W	SANDEEP KHATIWODA	ENGRS
80034	Y	PARVEEN	INF
80035	F	ARIJIT SINGHA	SIGS
80036	K	BHUPINDER CHOUDHARY	ARTY
80037	M	C HARISH	SIGS
80038	P	UTKARSH SHUKLA	ENGRS
80039	X	THOMACHAN M S	EME
80040	M	PRASHANT KUMAR SINGH	ARTY

IC No		Name	Arms/ Services
80041	P	A S N DIRAJ KUMAR	EME
80042	X	VINEET SANGWAN	ARTY
80043	A	PARAS BISHT	ENGRS
80044	H	TARANVEER SINGH	ENGRS
80045	L	ABHINAV KUMAR CHOUDHARY	SIGS
80046	N	LOVEPREET SINGH BAJWA	EME
80047	W	HARENDRA SINGH NEGI	EME
80048	Y	MANISH	SIGS
80049	F	SUBODH BALYAN	ENGRS
80050	W	VIRAT CHAWLA	ENGRS
80051	Y	ARVIND SINGH DHAKAR	SIGS
80052	F	TENHEIBA IROM	EME
80054	M	GAURAV SINGH	EME
80055	P	HIMANSHU SINGH	ENGRS
80056	X	AAKARSH AGRAWAL	SIGS
80057	A	PRINCE TOMER	SIGS
80058	H	SARWAN KUMAR YADAV	INF
80059	L	VAIBHAV SHARMA	AC
80060	A	AKASH YADAV	ENGRS
80061	H	P G DHRUVA RAO	ENGRS
80062	L	ANOOP SOLANKI	EME
80063	N	VISHAL LAMBA	EME
80064	W	RAJESH RATHORE	ENGRS
80065	Y	PRATEEK GULABANI	ARTY
80066	F	SHASHANK SHIVSHANKAR BIRADAR	INF
80067	K	ABHILASH RAI	EME
80068	M	SUDHEER KUMAR YADAV	ENGRS
80069	P	RAJPAL SINGH GOUR	EME
80070	K	MOHIT BHASIN	ENGRS
80071	M	VIVEK MALIK	ENGRS
80072	P	AMIT SINGH	SIGS
80073	X	CHIRANJEEV KUMAR SOLANKI	SIGS
80074	A	AMIT PRATAP	EME
80075	H	MOHIT KUMAR	SIGS

IC No		Name	Arms/ Services
80076	L	AYUSH BISHT	EME
80077	N	RAVI GULIA	MECH INF
80078	W	RAKSHIT PRIYADARSHI	ARTY
80079	Y	ASHWANI KUMAR THAKUR	INF
80080	N	ANUBHAV BHARDWAJ	AC
80081	W	MD ASIF AHMAD	SIGS
80082	Y	ANURAG PUNIA	ARTY
80083	F	ANAND SINGH	SIGS
80084	K	HRIDAYAKUMAR K V	ENGRS
80085	M	SANJEEV KUMAR	EME
80086	P	SIDDHANT RANA	SIGS
80087	X	KAAMIL KHAN	ENGRS
80088	A	SATENDRA VASHIST	ARTY
80089	H	ROHIT OHDAR	SIGS
80090	X	PARAS BAJAJ	AAD
80091	A	ASHISH DUBEY	ENGRS
80092	H	SUSHIL SEHRAWAT	EME
80093	L	ARPAN KUMAR MAITY	EME
80094	N	DIVYANK TYAGI	ARTY
80095	W	PRASHANT SOLANKI	ENGRS
80096	Y	AJIT MISHRA	SIGS
80097	F	SHIVAM DAGUR	SIGS
80098	K	LOHITASHVA PANDEY	INF
80099	M	ANURAG KUMAR SINGH	EME
80100	W	S RAGHUL	AAD
80101	Y	CHETAN JOSHI	ENGRS
80102	F	VIKAS TIWARI	ENGRS
80103	K	GAURAV RAJAIN	ENGRS
80104	M	VIKRAM SINGH	EME
80105	P	ABHISHEK DOBHAL	ENGRS
80106	X	VISHESH ADITYA SINGH	INF
80107	A	SUMIT SINGH	SIGS
80108	H	AKHIL K	ENGRS
80109	L	ARUNDEEP TALLURU	EME
80110	A	MUKESH KUMAR SINGH	INF

IC No		Name	Arms/ Services
80111	H	ANGAD SINGH	ARMY AVN
80112	L	MALVINDER SINGH THAKUR	ENGRS
80113	N	SATYENDER SINGH	INF
80114	W	ROSHAN RAJ	INT
80115	Y	ASHUTOSH YADAV	MECH INF
80116	F	SIDDHARTH SOLANKI	ENGRS
80117	K	SRI SYAM VARMA PC	INF

To be Lts W.E.F 08 JUN 2013

1. The undermentioned One Gentleman Cadet of 132 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 08 Jun 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

BORAWAKE APOORV SUHAS (IC-78013K) ENGRS seniority next below VISHNU PILLAI (IC-78012F) EME whose name appeared in the Gazette of India.

1. The undermentioned One Gentleman Cadet of 132 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 08 Jun 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ABHIK GUPTA (IC-77839L) ARTY seniority next below ANIMESH CHAKRABORTY (IC-77838H) INF whose name appeared in the Gazette of India.

To be Lts W.E.F 14 DEC 2013

1. The undermentioned Two Gentleman Cadet of 133 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Dec 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

RAJDEEP SINGH (IC-78381Y) MECH seniority next below ASHISH SINGH MOR (IC-78380W) INF COMMA KULDEEP SINGH (IC-78577M) ASC seniority next below NIKHIL M (IC-78576K) SIGS whose name appeared in the Gazette of India.

1. The undermentioned Six Gentleman Cadet of 134 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Jun 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

RAJESH KUMAR YADAV (IC-79224Y) AAD seniority next below SAKET SHANDILYA (IC-79223W) INF COMMA ABHISHEK SHARMA (IC-79158F) AC seniority next below SARVESH SINGH YADAV (IC-79157Y) INF COMMA JAGTAR JOHAL (IC-79132M) INF seniority next below RAHUL KUMAR SINGH (IC-79131K) ASC COMMA HIWALE FRANCIS ROBIN (IC-79140L) INF seniority next below AJEET YADAV (IC-79139W) ARTY COMMA SOMESH SINGH CHOUDHARY (IC-79211F) AVN seniority next REVANA JAYACHANDRAN VISHNU NAIDU (IC-79210Y) INF COMMA SONU SINGH (IC-79309P) ASC seniority next MOHIT SRIVASTAVA (IC-79308 M) INF whose name appeared in the Gazette of India.

The undermentioned two Gentleman Cadet of 134 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Jun 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

NAIKUDE SATISH R (IC-78993W) INF seniority next below SAKET KUMAR SINGH (IC-78992N) INF COMMA AMIT KUMAR SINGH (IC-79103X) INF seniority next below RAMESH PANDI J (IC-79102P) INF whose name appeared in the Gazette of India.

S N MISHRA
Lt Col
AMS 8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 208, dated 13th August 2015—The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of ₹15600-39100(Pay Band-3) + Grade Pay ₹5400/- :-

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2014AB1029	Shri Aman Kumar	ARDE, Pune	01.08.2014
2014AB1030	Shri Yatin Chaudhary	ARDE, Pune	01.08.2014
2014AB1005	Shri Abhishek Shrivastava	CAIR, Bangalore	01.08.2014
2014AB1006	Shri Avi Somani	CAIR, Bangalore	01.08.2014
2014AB1015	Shri Karri Dali Naidu	CAIR, Bangalore	01.08.2014
2013AB1041	Shri SRG Krishna Teja	CHESS, Hyderabad	05.08.2013
2013AB1028	Ms. Anamika Patel	DLRL, Hyderabad	05.08.2013
2013AB1029	Shri Panga Radhakrishna	DLRL, Hyderabad	05.08.2013
2014AB1051	Ms. Swati	Naval Selection Board, Visakhapatnam	25.06.2014
2012AB1060	Shri Sumanth Polimera	NSTL, Visakhapatnam	09.07.2012

RAJEEV RANJAN
Jt. Director/Pers (DRDS-II)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 209, dated 14th August 2015—The President is pleased to make the following promotions: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. ACTG MAJ GEN	D.O. SUBS MAJ GEN
V.-00359	A/Maj Gen	AJ Singh, VSM	RVC	17.10.14	20.10.14

To be Substantive Brigadier

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-43730	A/BRIG	VIKRANT NAYAR	ARMD	22.03.13	01.04.13 with seniority from 12.06.11 without effect on pay and pension.
IC-48037	A/BRIG	KV PRASAD	ENGRS	01.11.13	01.11.13 with seniority from 21.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44175	A/BRIG	SM LIMAYE	SIKH	01.03.13	13.12.13 with seniority from 02.07.11 without effect on pay and pension.

S C KHANSILI
Dir MS(X)

AIR BRANCH

No. 210, dated 17th August 2015—The President is pleased to make the following Substantive Promotions: -

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Substantive Air Marshal

RANK	NAME	NO	BR	DATE
AIR MSHL	B SURESH AVSM VM	16206	F(P)	01.11.14
AIR MSHL	JS KLER VM	16225	F(P)	02.02.15

AK SINGH

Dy. Dir Personnel (Officer)-2(B)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 211, dated 18th August 2015—The President is pleased to promote the following Scientists of DRDO HQ from their existing grade to the next higher grade in the same establishment w.e.f 01 Jul 2015 as mentioned against each:-

S.No	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Band +Grade Pay (in Rs)	Variable Increments Granted
1.	Shri Alok Mall	Sc 'F'	Sc 'G'	37400-67000+10000/- + Special Pay Rs. 4000/-	3
2.	Shri Radhey Shyam Gauba	Sc 'F'	Sc 'G'	37400-67000+10000/- + Special Pay Rs. 4000/-	3
3.	Dr Om Kumar	Sc 'F'	Sc 'G'	37400-67000+10000/- + Special Pay Rs. 4000/-	4
4.	Shri JK Gupta	Sc 'F'	Sc 'G'	37400-67000+10000/- + Special Pay Rs. 4000/-	4
5.	Shri KK Pathak	Sc 'F'	Sc 'G'	37400-67000+10000/- + Special Pay Rs. 4000/-	3
6.	Shri Hemant Kumar Gupta	Sc 'F'	Sc 'G'	37400-67000+10000/- + Special Pay Rs. 4000/-	1
7.	Shri Bhaskar Burman	Sc 'F'	Sc 'G'	37400-67000+10000/- + Special Pay Rs. 4000/-	4
8.	Smt Sellammal Sekhar	Sc 'F'	Sc 'G'	37400-67000+10000 /-+ Special Pay Rs. 4000/-	4
9.	Shri Sumit Goswami	Sc 'E'	Sc 'F'	37400-67000+8900/-	5
10.	Shri Gulshan Rai Panesar	Sc 'E'	Sc 'F'	37400-67000+8900/-	4
11.	Smt Romi Sinha	Sc 'E'	Sc 'F'	37400-67000+8900/-	5
12.	Shri Vipul Gupta	Sc 'D'	Sc 'E'	37400-67000+8700/-	6
13.	Shri Kumresh Kumar Gaur	Sc 'D'	Sc 'E'	37400-67000+8700/-	6
14.	Shri Yogesh Shakya	Sc 'D'	Sc 'E'	37400-67000+8700/-	4
15.	Shri Vivek Sharma	Sc 'D'	Sc 'E'	37400-67000+8700/-	5
16.	Shri Manoj Panwar	Sc 'B'	Sc 'C'	15600-39100+6600/-	4
17.	Ms Komal Sharma	Sc 'B'	Sc 'C'	15600-39100+6600/-	4

RAJEEV RANJAN
Jt. Dir.(Pers/DRDS-II)

**MILITARY SECRETARY'S BRANCH
CORRIGENDUM**

No. 212, dated 19th August 2015—In the Government of India, Ministry of Defence, published in the Gazette of India, New Delhi, dated 22 Mar 2014 under the heading REGULAR ARMY, PERMANENT COMMISSION, TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER, MILITARY SECRETARY'S BRANCH is hereby amended as under:-

FOR:-

IC-40216	BRIG	GS TALWAR	ARTY	22.06.10	22.06.11 with seniority from 08.08.09 without effect on pay and pension.
----------	------	-----------	------	----------	--

READ:-

IC-40216	BRIG	GS TALWAR	ARTY	22.06.10	22.06.10 with seniority from 08.08.09 without effect on pay and pension.
----------	------	-----------	------	----------	--

S C KHANSILI
Dir MS(X)

ARMY BRANCH

No. 213, dated 20th August 2015—The President is pleased to make the following appointments.

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
To be Lt w.e.f 09 Dec 2006
CORRIGENDUM**

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 119 Regular Course published in the Gazette of India dated 26 Apr 2008 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is here by amended as under :-

For	PUSHPINER SINGH	IC-68591L	ARTY
Read	PUSHPINDER SINGH	IC-68591L	ARTY

PRADEEP GOVINDAN
Lt Col
AMS- 8B

ARMY BRANCH

No 214, dated 21st August 2015—The President is pleased to make the following appointments :-

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
CORRIGENDUM**

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 88 TGC & 7A UES Course published in the Gazette of India dated 29 Jul 2000 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is here by amended as under:-

For

T/5715	Ajay Loomba	IC-59582H	SIGS
--------	-------------	-----------	------

Read

T/5715	Ajay Lumba	IC-59582H	SIGS
--------	------------	-----------	------

S N MISHRA
Lt Col
AMS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in